



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/Weekly

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 25, 2004—दिसम्बर 31, 2004 (पौष 4, 1926)
No. 52] NEW DELHI, SATURDAY, DEC. 25, 2004—DEC. 31, 2004 (PAUSA 4, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4 [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 25 दिसम्बर 2004

सं. 640, दिनांक 3 दिसम्बर 2004.—इस मंत्रालय की 26 अप्रैल 2004 की समसंख्यक अधिसूचना में आंशिक आशोधन करते हुए रक्षा मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के सहायक श्री आर. बी. बलोनी को 1 अप्रैल 2004 से इस मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाता है। उनकी तदर्थ नियुक्ति की अन्य शर्तें व निर्बंधन अपरिवर्तित रहेंगे।

वी. सरस्वती
उप सचिव

सेना शाखा

नई दिल्ली, दिनांक 9 दिसम्बर 2004

सं. 641, दिनांक 9 दिसम्बर 2004.—अनुदेश 14/79 द्वारा यथा संशोधित थल सेना अनुदेश 75/78 के अधीन राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:—

1—384 GI/2004

नियमित सेवा

अल्पकालीन आयोग

(कप्तान के पद पर परख पर)

कप्तान बरनाली मुखोपाध्याय (एमएस-14303ए), ए एम सी, 21 जनवरी 2002

कप्तान विधान राव (एमएस-14350एक्स), ए एम सी, 18 फरवरी 2002

कप्तान शमीम मोहम्मद मेनन (एमएस-14373वाई), ए एम सी, 21 जनवरी 2002

कप्तान अशोक कुमार (एमएस-14453डब्ल्यू), ए एम सी, 08 मार्च 2002

कप्तान भारत कुमार एन (एमएस-14457एम), ए एम सी, 19 दिसम्बर 2002

कप्तान अबनित करण (एमएस-14458पी), ए एम सी, 19 दिसम्बर 2002

(1767)

कप्तान (कुमारी) मीना जाटवेन्दू (एमएस-14459एक्स), ए एम सी, 19 दिसम्बर 2002

कप्तान हरी भास्कर एस (एमएस-14460एम), ए एम सी, 19 दिसम्बर 2002

कप्तान अमरपाल सिंह (एमएस-14463ए), ए एम सी, 19 दिसम्बर 2002

कप्तान समर वीर सिंह (एमएस-14486एफ), ए एम सी, 19 दिसम्बर 2002

कप्तान रजनी कान्त तिवारी (एमएस-14491एम), ए एम सी, 19 दिसम्बर 2002

कप्तान लोकेश चौहान (एमएस-14496एल), ए एम सी, 19 दिसम्बर 2002

कप्तान सतीश सौम्या जीवन्नावीर (एमएस-14613एल), ए एम सी, 27 मार्च 2003

कप्तान निखिल एस भारद्वाज (एमएस-14616वाई), ए एम सी, 29 मार्च 2003

फ्ला. लेफ्टि. के पद पर परख पर

फ्ला. लेफ्टि. हरविन्दर पाल सिंह सहोय (एमएस-14505एफ), ए एम सी, 07 जनवरी 2003

फ्ला. लेफ्टि. सुरेन्द्र सिंह (एमएस-14632डब्ल्यू), ए एम सी, 30 जून 2003

फ्ला. ऑफिसर सुब्रह्मण्या यू (एमएस-14647वाई)/(एफ-26924एच), ए एम सी, 24 जनवरी 2003

(इण्टर्नशिप प्रशिक्षण के पश्चात् दिनांक 10.10.2003 से फ्ला. लेफ्टि. के पद पर पदोन्नत)

फ्ला. लेफ्टि. मनजीत सिंह परटोला (एमएस-14648एफ)/(एफ-26926), ए एम सी, 19 फरवरी 2003

फ्ला. ऑफिसर रूची खुराना (एमएस-14651एफ)/(एफ-26946जी), ए एम सी, 24 मार्च 2003

(इण्टर्नशिप प्रशिक्षण के पश्चात् दिनांक 01.09.2003 से फ्ला. लेफ्टि. के पद पर पदोन्नत)

फ्ला. लेफ्टि. यातेन्द्रा दिनकर (एमएस-14659एन)/(एफ-26929), ए एम सी, 13 जनवरी 2003

फ्ला. लेफ्टि. अमोल विनायकराव चिटनीश (एमएस-14660एच)/(एफ-26923एफ), ए एम सी, 20 जनवरी 2003

फ्ला. लेफ्टि. विश्वजीत लाल श्रीवास्तव (एमएस-14702के)/(एफ-26925), ए एम सी, 25 जनवरी 2003

फ्ला. लेफ्टि. सुनीता देसाईराव पाटील (एमएस-14703एम)/(एफ-26935), ए एम सी, 16 अप्रैल 2003

उज्ज्वल सिंह तंवर (एमएस-14108एच)/(एफ-26070आर), 22 जनवरी 2001 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 22.01.97 से दी जाएगी। (इसमें स्नातकोत्तर योग्यता एम. एस. (ज. सर्जरी) के लिए 24 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

यथासंशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:--

नियमित सेना

अल्पकालीन आयोग

फ्ला. लेफ्टि. के पद पर (परख पर)

फ्ला. ऑफिसर राकेश गुप्ता (एमएस-14028एल)/(एफ-25590एन), एएमसी, 15 नवम्बर 1999

(इण्टर्नशिप प्रशिक्षण के पश्चात् दिनांक 15 मई 2000 से फ्ला. लेफ्टि. के पद पर पदोन्नत)

फ्ला. लेफ्टि. योगेश चन्दा (एमएस-14053के)/(एफ-25586के), एएमसी, 12 अक्टूबर 1999

फ्ला. लेफ्टि. ज्योति प्रसाद एम एस (एमएस-14080एन)/(एफ-26030एन), एएमसी, 3 फरवरी 2000

फ्ला. लेफ्टि. (श्रीमती) यशोदा कोण्डल (एमएस-14110ए), एएमसी, 3 अक्टूबर 1997

फ्ला. लेफ्टि. शर्मा गरीमा चन्द्र शेखर (एमएस-14187एच)/(एफ-26056), एएमसी, 01 जनवरी 2001

फ्ला. लेफ्टि. एस इंदारसु (एमएस-14241एल)/(एफ-26072बी), एएमसी, 23 जनवरी 2001

फ्ला. लेफ्टि. उमेश गुप्ता (एमएस-14261वाई)/(एफ-26471एच), एएमसी, 07 जून 2001

फ्ला. लेफ्टि. हर्ष अबूत (एमएस-14500एच)/(एएमसी, 21 जनवरी 2002

फ्ला. लेफ्टि. सरिता पंवर (एमएस-14551डब्ल्यू)/(एफ-26506आर), एएमसी, 22 फरवरी 2002

फ्ला. लेफ्टि. अतुल गोयल (एमएस-14634एफ)/(एफ-25583), एएमसी, 27 सितम्बर 1999

फ्ला. लेफ्टि. सत्यजीत पती (एमएस-14635के)/(एफ-26485एच), एएमसी, 21 जनवरी 2002

फ्ला. लेफ्टि. देवाशीष महापात्रा (एमएस-14175एन)/(एफ-26061एन), एएमसी, 10 जनवरी 2001

फ्ला. लेफ्टि. मो इमरान गोहरी (एमएस-14185एक्स)/(एफ-26033एफ), एएमसी, 29 दिसम्बर 2000

फ्ला. लेफ्टि. विजई एम एन (एमएस-14190एच)/(एफ-26064एफ), एएमसी, 11 जनवरी 2001

फ्ला. लेफ्टि. आभा मलिक (एमएस-14504वाई)/(एफ-26915जी), एएमसी, 05 अगस्त 2002

फ्ला. लेफ्टी. (कु.) शालिनी सोमनाथ (एमएस-14638एक्स)/
(एफ-25554जी), एएमसी, 15 जनवरी 1999

फ्ला. लेफ्टी. गुलशन कुमार गर्ग (एमएस-14645एन)/
(एफ-26921जी), एएमसी, 27 दिसम्बर 2002

फ्ला. लेफ्टी. श्रीनिवासा प्रभु एम (एमएस-14658एल)/
(एफ-26903), एएमसी, 12 मार्च 2002

एम. श्रीवास्तवा
ब्रिगेडियर

उप महानिदेशक (कार्मिक)

सं. 642, दिनांक 8 दिसम्बर 2004.--राष्ट्रपति, निम्नलिखित को सहर्ष नियुक्त करते हैं।

(नियमित सेना)

अल्प सेवा आयोग

निम्नलिखित महिला अधिकारी ने अल्प सेवा आयोग (परखाधीन) छह माह का समय जोकि 04 मार्च 2000 को शुरू हुआ था, लै. के पद पर पूरा कर लिया है। उस को दिनांक 04 मार्च 2000 से अल्प सेवा आयोग लै. के पद पर पांच वर्ष के लिये विशेष सेनानुदेश 1/एस/92 के अन्तर्गत प्रदान किया जाता है।

मीताली मधुमीता (डब्ल्यू एस-00458के), ए.ई.सी. निदिष्टता ले. सोनम जैन (डब्ल्यू एस-00457एफ), ए.ओ.सी., जिसका नाम भारतवर्ष के राजपत्र 23 दिसम्बर 2000 में प्रकाशित हुआ था, उस में अंकित किया जाता है।

लै. के पद पर

निम्नलिखित अधिकारी ने अल्प सेवा आयोग छह मास का समय जोकि 06 सितम्बर 2003 को शुरू हुआ था, लै. के पद पर पूरा कर लिया है। उसको उसी दिनांक 06 सितम्बर 2003 से अल्प सेवा आयोग लै. के पद पर पांच वर्ष के लिये विशेष सेनानुदेश 3/एस/98 संशोधित के अन्तर्गत प्रदान किया जाता है।

टेकावडे अतुल मास्ती (एसएस-40276वाई) ए.डी.ए. निर्दिष्टता ज्येष्ठा लै. हरमिक सिंह (एसएस-40275 डब्ल्यू), ए.ओ.सी. जिसका नाम भारतवर्ष के राजपत्र 10 जुलाई 2004 को प्रकाशित हो चुका है, उसी में अंकित किया जाता है।

एस. के. शर्मा
मेजर

उप सह सेना सचिव-8बी

वायु सेना मुख्यालय

सं. 643, दिनांक 3 दिसम्बर 2004.--राष्ट्रपति सहर्ष, श्री पी के सरकार, सहायक सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियमावली 2001 की धारा 7(8) के अधीन स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी (ग्रुप 'ख' राजपत्रित)

वेतनमान, 6500-200-10500, के पद पर दिनांक 30 जुलाई 2004 से दिनांक 24 अगस्त 2004 तक या सेवा निवृत्त होने तक अथवा नियमित अधिकारियों के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

इनकी नियुक्ति पूर्णतः काम चलाऊ आधार पर है और प्रशासनिक कारणों से अथवा नियमित अधिकारी के उपलब्ध होने पर यह नियुक्ति बिना सूचना दिए समाप्त की जा सकती है।

सन्तोष दासगुप्ता
उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

बाबु शाखा

सं. 644, दिनांक 9 दिसम्बर 2004.--राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से वायु सेना आदेश 59/98 के उपबन्धों के तहत स्थायी कमीशन तथा विंग परखाधीन प्रदान करते हैं तथा प्रदान करने की तारीख से उड़ान वेतन पाने के अधिकारी हैं।

भारतीय वायु सेना

उड़ान (पायलट) शाखा

भूतपूर्व फ्लाईट केडेट फ्लाईंग अफसर के रैंक में

फ्लाईंग अफसर अनिल प्रताप सिंह (26086), गुरु नन्दन सिंह (26095), अलेपरामबिल बाबु प्राजीत बाबु (26104), अंकित सूद (26107), गीतेश कुमार साह (26111), बनडारू जगदीप (26115) दिनांक 17 जून 2000 से।

संजीव श्रीवास्तव
स्कवाड्रन लीडर
डी डी पी ओ-3(डी)

बाबु सेना मुख्यालय

सं. 645, दिनांक 3 दिसम्बर 2004.--राष्ट्रपति सहर्ष, निम्नलिखित वैयक्तिक सहायकों की सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में निजी सचिव, (ग्रुप ख राजपत्रित), वेतनमान, 6500-200-10500 के पद पर अस्थाई आधार पर नियुक्ति को दिनांक 30 जून 2004 से आगे 31 दिसम्बर 2004 तक अथवा चयन सूची से नियमित व्यक्तियों के उपलब्ध होने अथवा उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं:--

- क. एल एन गुप्ता
- ख. प्रदीप कपूर
- ग. ए पी आहूजा
- घ. श्रीमती गीता जयकुमार
- च. श्रीमती सिन्धिया कपूर
- छ. टी सी अरोड़ा
- ज. कुमारी राधा राजन
- झ. वी के सरपाल

- ट. बाल कृष्ण
 ठ. के सी बी राजा
 ड. श्रीमति सन्तोष दीवान
 ढ. रमेश असवानी
 त. एस के सचदेवा
 थ. ए के छिब्बर

(सेना शाखा)

नियमित सेना

सेना सेवा कोर (यान्त्रिक परिवहन और पूर्ति)

सं. 647, दिनांक 6 दिसम्बर 2004.--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं।

सूबेदार मेजर (एम टी)

2. उपरलिखित अधिकारियों की निजी सचिव के रूप में पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के आधार पर है:--

- (क) यह पदोन्नतियाँ पूर्णतः अस्थाई आधार पर की गई हैं तथा प्रशासनिक कारणों पर बिना किसी पूर्व सूचना दिये समाप्त की जा सकती हैं।
- (ख) उपर्युक्त पद पर स्थाई पदोन्नति के लिए उनका न तो कोई दावा होगा न ही उनकी अस्थाई नियुक्ति की अवधि को वरिष्ठता के लिए गिना जाएगा।

सन्तोष दासगुप्ता
 उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

(सेना शाखा)

सं. 646, दिनांक 9 दिसम्बर 2004.--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को परख अवधि पूरा होने पर पक्का करते हैं:--

नियमित सेवा

अल्पकालिक कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा)

लेफ्टि बगधी चन्द्रशेखर राव (एनटीएस-17464एन), 24 अप्रैल 2002
 लेफ्टि शिंदे राजकुमार ज्ञानदेव (एनटीएस-17467वाई), 24 अप्रैल 2002

लेफ्टि क्रिस्टपर हेपोलेरी (एनटीएस-17465डब्ल्यू), 24 अप्रैल 2002

लेफ्टि ए सुकुमार (एनटीएस-17468के), 24 अप्रैल 2002

लेफ्टि आर डी भांगखू (एनटीएस-17480एल), 26 अप्रैल 2002

लेफ्टि वरूण श्रीवास्तव (एनटीएस-17471के), 24 अप्रैल 2002

लेफ्टि सुशील सिंह (एनटीएस-17475ए), 24 अप्रैल 2002

लेफ्टि जामलाल गुट्टी (एनटीएस-17482डब्ल्यू), 27 अप्रैल 2002

लेफ्टि पलानीवेल आर (एनटीएस-17477एल), 24 अप्रैल 2002

लेफ्टि राजु पी (एनटीएस-17472एम), 24 अप्रैल 2002

लेफ्टि लसीराम देवन सिंह (एनटीएस-17478एन), 24 अप्रैल 2002

एम श्रीवास्तवा

ब्रिगेडियर

उप महानिदेशक (कार्मिक)

सूबेदार हरेश्वर पाण्डेय (जेसी-660882एन), 13 जुलाई 2004/01 सितम्बर 2003*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2003 से दी जायेगी।)

सूबेदार दिली किशोर नायक (जेसी-660917डब्ल्यू), 14 नवम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2003 से दी जायेगी।)

सूबेदार मधेश्वर सिंह (जेसी-660778ए), 01 जनवरी 2004

सूबेदार चंदगी राम (जेसी-660733ए), 01 फरवरी 2004

सूबेदार अजीत कुमार गुप्ता (जेसी-660792एम), 02 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2004 से दी जायेगी।)

सूबेदार रनबीर सिंह चौहान (जेसी-660699एल), 01 मार्च 2004

सूबेदार रामेश्वर सिंह (जेसी-660856एम), 01 मार्च 2004

सूबेदार बुच्छे शिवाजी मोतीराम (जेसी-660899एफ), 08 मार्च 2004/01 मार्च 2004*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जायेगी।)

सूबेदार चक्रधर नायक (जेसी-660878एल), 01 अप्रैल 2004

सूबेदार अजैब सिंह (जेसी-660900एल), 01 अप्रैल 2004

सूबेदार रमेश प्रसाद सिंह (जेसी-660912एम), 19 अप्रैल 2004/01 अप्रैल 2004*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जायेगी।)

सूबेदार राम दुलार शर्मा (जेसी-660913एच), 02 अप्रैल 2004/01 अप्रैल 2004*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जायेगी।)

सूबेदार कुलदीप राय (जेसी-660962एल), 01 मई 2004

सूबेदार देव सरन राम (जेसी-661077डब्ल्यू), 01 मई 2004

सूबेदार भनी राम (जेसी-660964डब्ल्यू), 01 मई 2004

सूबेदार सुरिन्दर सिंह (जेसी-660905डब्ल्यू), 12 मई 2004/01 मई 2004*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मई 2004 से दी जायेगी।)

सूबेदार एन आर बादराम (जेसी-660966एफ), 26 जून 2004/01 जून 2004*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जून 2004 से दी जायेगी।)

सूबेदार कलसलन टी (जेसी-661114वाई), 01 जुलाई 2004

सूबेदार सत्य नारायण (जेसी-660974वाई), 02 अगस्त 2004/01 अगस्त 2004*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जायेगी।)

सूबेदार एस जलालुद्दीन (जेसी-660999एम), 02 अगस्त 2004/01 अगस्त 2004*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जायेगी।)

सूबेदार थोमस टी टी (जेसी-661176वाई), 01 अगस्त 2004

सूबेदार राम किशन (जेसी-661083के), 01 अगस्त 2004

सूबेदार अनुप सिंह (जेसी-660985एम), 10 अगस्त 2004/01 अगस्त 2004*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जायेगी।)

सूबेदार आश्वनी कुमार कश्यप (जेसी-661094 डब्ल्यू), 02 अगस्त 2004/01 अगस्त 2004*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जायेगी।)

सूबेदार राम नरेश मौर्या (जेसी-661204ए), 01 अगस्त 2004

सूबेदार रोमेश चन्द्र (जेसी-661042ए), 09 सितम्बर 2004/01 सितम्बर 2004*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2004 से दी जायेगी।)

सूबेदार राम फल सिंह (जेसी-661179एफ), 02 सितम्बर 2004/01 सितम्बर 2004*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2004 से दी जायेगी।)

सूबेदार पांडव घमीर दास धुलजी भाई (जेसी-661206एल), 01 सितम्बर 2004

सूबेदार मेजर (पी ए)

सूबेदार समपुरन चंद (जेसी-202640एम), 01 अप्रैल 2004

सूबेदार उन्नीकृष्णन पी (जेसी-217299एक्स), 01 मई 2004

सूबेदार दामोदरन चोरुवादायिल (जेसी-640260एल), 03 अगस्त 2004/01 अगस्त 2004*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जायेगी।)

सूबेदार केवल सिंह (जेसी-640430के), 01 अगस्त 2004

सूबेदार मेजर लिपिक (जी डी/एस डी)

सूबेदार भूप सिंह (जेसी-640615एल), 01 जनवरी 2004

सूबेदार शाजी वी (जेसी-640282के), 01 मई 2004

सूबेदार एम दुराईसामी (जेसी-640757एच), 01 अगस्त 2004

सूबेदार दिम्बेश्वर दास (जेसी-640594ए), 01 सितम्बर 2004

सूबेदार सतपाल सिंह (जेसी-640618वाई), 04 अक्टूबर 2004/01 अक्टूबर 2004*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी।)

सूबेदार मेजर लिपिक (जी डी)

सूबेदार सुरेंद्र वर्मा राजा सी आर (जेसी-640316एम), 01 फरवरी 2004

सूबेदार जगदीश प्रसाद जांगिड (जेसी-640175एच), 01 मार्च 2004

सूबेदार रामा कृष्णन आर (जेसी-640211एच), 01 मार्च 2004

सूबेदार अशोक एल पवार (जेसी-640223एक्स), 01 मार्च 2004

सूबेदार सतलेम वेनूगोपाल राव (जेसी-640238ए), 01 मार्च 2004

सूबेदार जालेश्वर प्रसाद सिंह (जेसी-640241ए), 01 मार्च 2004

सूबेदार शिव प्रसाद शर्मा (जेसी-640306एच), 01 मई 2004

सूबेदार गौरंगा चन्द्र मंडल (जेसी-640322ए), 01 जुलाई 2004

सूबेदार ओम प्रकाश सिंह (जेसी-640478एक्स), 02 अगस्त 2004/01 अगस्त 2004*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जायेगी।)

सूबेदार वीरान्ना हवलदार (जेसी-640479ए), 02 अगस्त 2004/01 अगस्त 2004*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जायेगी।)

सूबेदार प्रसोभन सी एस (जेसी-640480पी), 11 सितम्बर 2004/01 सितम्बर 2004*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2004 से दी जायेगी।)

सूबेदार अश्वनी कुमार शर्मा (जेसी-640481एक्स), 01 सितम्बर 2004

सूबेदार रघुनाथ प्रसाद साद (जेसी-640484एल), 01 अक्टूबर 2004

सूबेदार मेजर (एस के टी)

सूबेदार राम अवतार सिंह (जेसी-213848पी), 30 दिसंबर 2004/01 सितंबर 2004 *

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितंबर 2004 से दी जायेगी।)

सूबेदार जोगा राम (जेसी-223357एम), 03 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004 *

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2004 से दी जायेगी।)

सूबेदार बागा राम (जेसी-213664डब्ल्यू), 16 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004 *

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2004 से दी जायेगी।)

सूबेदार तजबर सिंह (जेसी-213782के), 01 अप्रैल 2004

सूबेदार भीम सिंह (जेसी-213784पी), 05 अप्रैल 2004/01 अप्रैल 2004 *

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जायेगी।)

सूबेदार रूकम पाल सिंह (जेसी-213800एफ), 05 अप्रैल 2004/01 अप्रैल 2004 *

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जायेगी।)

सूबेदार मंगल सिंह रावत (जेसी-213685डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2004

सूबेदार हरी राम वर्मा (जेसी-213790एच), 01 अप्रैल 2004

सूबेदार सुभाष चन्द्र (जेसी-213817एफ), 07 मई 2004/01 मई 2004 *

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मई 2004 से दी जायेगी।)

सूबेदार सुरेश चन्द (जेसी-213811एन), 01 मई 2004

सूबेदार मधन सिंह धामी (जेसी-213816एम), 14 मई 2004/01 मई 2004 *

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मई 2004 से दी जायेगी।)

सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-213815के), 01 मई 2004

सूबेदार जे अरुमुगम (जेसी-213819ए), 03 जून 2004/01 जून 2004 *

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जून 2004 से दी जायेगी।)

सूबेदार सुभाष चन्द्र विश्वास (जेसी-213851पी), 01 जुलाई 2004

सूबेदार समीर कुमार घोश (जेसी-213859एफ), 14 अगस्त 2004/01 अगस्त 2004 *

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जायेगी।)

सूबेदार गुलाब सिंह (जेसी-213854एच), 01 अगस्त 2004

सूबेदार नारायणन टी टी (जेसी-213860डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2004

सूबेदार चन्द्र केतु त्रिपाठी (जेसी-215482एफ), 01 अक्टूबर 2004

सूबेदार रेशम सिंह (जेसी-215484एम), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार (पी ए)

हवलदार गोड्डा शेखा राव (14474732पी अब जेसी-643155ए), 01 फरवरी 2004 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 मार्च 2003 से दी जायेगी।)

हवलदार रमेश चन्द्रन के (9085646एन अब जेसी-643156एच), 01 अक्टूबर 2003

हवलदार तमिजुल हसन (14477883वाई अब जेसी-643157एल), 06 फरवरी 2003 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2003 से दी जायेगी।)

हवलदार दल बहादुर पाल (6378081एफ अब जेसी-643158एन), 01 मार्च 2004

हवलदार अनिल कुमार सिन्हा (6378135एक्स अब जेसी-643159डब्ल्यू), 01 मार्च 2004

हवलदार बाबुलाल चौधरी (6378335एन अब जेसी-643160एल), 01 अप्रैल 2004

हवलदार प्रमोद कुमार (2778709एन अब जेसी-643161एन), 05 अप्रैल 2004 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जायेगी।)

हवलदार नारायणन एस (6378580डब्ल्यू अब जेसी-643162डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2004

हवलदार बलदेव सिंह (14371818एन अब जेसी-643163वाई), 01 अप्रैल 2004

हवलदार भगवान सिंह (2980311एफ अब जेसी-643164एफ), 01 अप्रैल 2004

हवलदार शिशपाल सिंह (6650049पी अब जेसी-643165के), 01 अप्रैल 2004

हवलदार प्रमोद नारायण सिंह (13883073के अब जेसी-643166एम), 01 अप्रैल 2004

हवलदार जितेन्द्र कुमार झा (14356433वाई अब जेसी-643177वाई), 01 मई 2004

हवलदार महक सिंह (6376141एम अब जेसी-643178एफ), 01 मई 2004

हवलदार मंगल सिंह राणा (6916911एफ अब जेसी-643179के), 01 मई 2004

हवलदार लक्ष्मण प्रसाद (6378681के अब जेसी-643229के), 21 मई 2004 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जायेगी।)

हवलदार सुभाष चन्द्र (2984011एक्स अब जेसी-643230पी), 01 जून 2004

हवलदार देवेन्द्र सिंह (9085618एफ अब जेसी-643231एफ), 01 जून 2004

हवलदार वेनुगोपालन के के (6378906एफ अब जेसी-643232के), 01 जून 2004

हवलदार भूपालन डी (2884947एल अब जेसी-643233एम), 01 जून 2004

हवलदार प्रवीन सिंह मेहता (2884729एम अब जेसी-643234पी), 01 जून 2004

हवलदार धर्म सिंह (6376191एक्स अब जेसी-662865एम), 01 अगस्त 2004 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2003 से दी जायेगी।)

हवलदार रविन्द्रा मन्डल (6650048एम अब जेसी-662866पी), 01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार लिपिक (जीडी/एसडी)

हवलदार रमेश चन्द राणा (6376487डब्ल्यू अब जेसी-643129वाई), 01 फरवरी 2004

हवलदार दिनेश चन्द्रा दुबे (6376498एच अब जेसी-643167पी), 01 फरवरी 2004

हवलदार रोहिताशव कुमार यादव (6376516ए अब जेसी-643168एक्स), 01 फरवरी 2004

हवलदार अशर्फी लाल (6376646एच अब जेसी-643169ए), 01 मार्च 2004

हवलदार राम किशोर मिश्रा (6376388डब्ल्यू अब जेसी-643170पी), 30 मार्च 2004 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2003 से दी जायेगी।)

हवलदार बिधान चन्द्रा बिशवास (6375855एन अब जेसी-643171एक्स), 01 अप्रैल 2004

हवलदार श्री कुमार एन सी (6383470एल अब जेसी-643172ए), 01 फरवरी 2004 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जायेगी।)

हवलदार रामबीर सिंह (6376627एक्स अब जेसी-643173एच), 01 मार्च 2004

हवलदार आशा राम (6375876के अब जेसी-643174एल), 01 अप्रैल 2004

हवलदार पी बाबु (6376687एम अब जेसी-643175एम), 01 मई 2004

हवलदार शान्ती प्रसाद नौटियाल (6376743ए अब जेसी-643176डब्ल्यू), 01 मई 2004

हवलदार धर्मपाल (6376489एफ अब जेसी-643235एक्स), 02 जून 2004 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2004 से दी जायेगी।)

हवलदार गणेश कुमार आर (6383629एल अब जेसी-643236ए), 01 जनवरी 2004

हवलदार सन्वर मल सैनी (6376331वाई अब जेसी-643237एच), 16 अप्रैल 2004 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जायेगी।)

हवलदार पी मुखारसु (6383018डब्ल्यू अब जेसी-643238एल), 01 जुलाई 2004 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 20 मार्च 2004 से दी जायेगी।)

हवलदार हरदीप सिंह (6383577ए अब जेसी-643239एन), 01 जुलाई 2004 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 20 मार्च 2004 से दी जायेगी।)

हवलदार रतन चन्द (6376524वाई अब जेसी-643240एच), 01 जुलाई 2004 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 20 मार्च 2004 से दी जायेगी।)

हवलदार पी टी ओमन (6376940एच अब जेसी-643241एल), 01 जुलाई 2004

हवलदार इलमु दीन (6376946के अब जेसी-643242एन), 01 जुलाई 2004

हवलदार रामलिंगा प्रसाद जी (6390223ए अब जेसी-662867एक्स), 01 फरवरी 2003

हवलदार बलबीर सिंह (6376947एम अब जेसी-662868ए), 01 अगस्त 2004

हवलदार अवय कुमार झा (6376619वाई अब जेसी-662869एच), 01 अगस्त 2004

हवलदार सौदागर सिंह जमवाल (6376387एल अब जेसी-662870एक्स), 01 सितम्बर 2004

हवलदार इकुरथी वेन्कय राव (6376361डब्ल्यू अब जेसी-662871ए), 06 सितम्बर 2004 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2004 से दी जायेगी।)

हवलदार बिरसा इलियास मिन्ज (6376213एल अब जेसी-662872एच), 01 सितम्बर 2004

हवलदार संकट मोचन पान्डे (6376440एल अब जेसी-662873एल), 05 सितम्बर 2004 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2004 से दी जायेगी।)

हवलदार अशोक कुमार जाखड (6382999वाई अब जेसी-662874एन), 01 सितम्बर 2004

पायनियर कोर

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार जीडी राधा कांता देबनाथ (8026175एक्स जेसी 829303वाई), 16 मई 2004 *

हवलदार जीडी बिरेन्द्र लाल (8028627एन जेसी-829304एफ), 01 जून 2004

हवलदार जीडी विनोद कुमार चौधरी (8026970एक्स जेसी-829305के), 08 अगस्त 2004@

हवलदार जीडी चंद्रा ठाकुरी (8027956एक्स जेसी-829306एम), 02 अगस्त 2004@

हवलदार जीडी रनवीर सिंह (8027897डब्ल्यू जेसी-829307पी), 17 अगस्त 2004@

*(वरिष्ठता 01 मई 2004 से वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना)

@(वरिष्ठता 19 जून 2004 से वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना)

तोपखाना रेजीमेन्ट

सबस्टैंटिव सूबेदार (जीडी) के पद में

नायब सूबेदार बलेन्द्र सिंह (जेसी-258192एक्स), 18 फरवरी 2004/01 अक्टूबर 2003 *

नायब सूबेदार विजेन्द्र कुमार सिंह (जेसी-260334एच), 17 दिसम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003 *

नायब सूबेदार उबाले सीताराम तुलसीराम (जेसी-261181डब्ल्यू), 14 जून 2004/01 अक्टूबर 2003 *

नायब सूबेदार प्रफुल्ला कुमार राऊत (जेसी-261182वाई), 26 मई 2004/01 अक्टूबर 2003 *

नायब सूबेदार प्राण नाथ (जेसी-261826एन), 09 अक्टूबर 2003/01 अक्टूबर 2003 *

नायब सूबेदार सुरत राम (जेसी-262052एच), 01 अक्टूबर 2003

नायब सूबेदार हर सिंह नेगी (जेसी-262004एच), 10 अक्टूबर 2003/01 अक्टूबर 2003 *

नायब सूबेदार वी शेकर (जेसी-262752डब्ल्यू), 23 दिसम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003 *

नायब सूबेदार सत पाल (जेसी-263050के), 20 जनवरी 2003/01 अक्टूबर 2003 *

नायब सूबेदार प्रथी चन्द (जेसी-264028एल), 11 नवम्बर 2003/01 अक्टूबर 2003 *

नायब सूबेदार लासा राम (जेसी-261728एन), 01 नवम्बर 2003/15 अक्टूबर 2003 *

नायब सूबेदार जेसा राम (जेसी-260060एच), 14 नवम्बर 2003/01 नवम्बर 2003 *

नायब सूबेदार पुरन सिंह (जेसी-260143एन), 01 जून 2004/01 नवम्बर 2003 *

नायब सूबेदार दया चन्द (जेसी-260850एक्स), 12 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003 *

नायब सूबेदार अनादी चरन बेहरा (जेसी-262171एल), 07 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003 *

नायब सूबेदार के रामायन (262639एफ), 10 नवम्बर 2003/01 नवम्बर 2003 *

नायब सूबेदार राज कुमार (जेसी-262916एफ), 13 नवम्बर 2003/01 नवम्बर 2003 *

नायब सूबेदार क्रिशन राम मिश्रा (जेसी-263202ए), 01 नवम्बर 2003

नायब सूबेदार हेम चन्द वालिया (जेसी-263280एक्स), 01 नवम्बर 2003

नायब सूबेदार राज सिंह (जेसी-263303एन), 17 दिसम्बर 2003/01 नवम्बर 2003 *

नायब सूबेदार विजय कुमार (जेसी-262932वाई), 06 जनवरी 2004/06 नवम्बर 2003 *

नायब सूबेदार भगाराम (जेसी-263305वाई), 06 जनवरी 2004/01 दिसम्बर 2003 *

नायब सूबेदार अभय सिंह (जेसी-263763पी), 28 जनवरी 2004/01 दिसम्बर 2003 *

नायब सूबेदार प्रकाश चन्द्र बहिरवाल (जेसी-264293एफ), 19 दिसम्बर 2003/01 दिसम्बर 2003 *

नायब सूबेदार रमेश चन्द्र सिंह (जेसी-263034एम), 10 फरवरी 2004/19 दिसम्बर 2003 *

नायब सूबेदार सत्य पाल (जेसी-263829ए), 22 फरवरी 2004/12 दिसम्बर 2003 *

नायब सूबेदार चन्दर पाल (जेसी-261579एल), 31 मार्च 2004/14 दिसम्बर 2003 *

नायब सूबेदार ईश्वर सिंह (जेसी-260807डब्ल्यू), 18 दिसम्बर 2003

नायब सूबेदार जगमल सिंह (जेसी-260816एक्स), 22 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004 *

नायब सूबेदार सन्तोष सिंह (जेसी-262403एम), 13 मई 2004/24 फरवरी 2004 *

नायब सूबेदार चवान अर्जुन रामदास (जेसी-261758एल), 25 फरवरी 2004

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-261514एक्स), 06 मई 2004/01 मार्च 2004 *

नायब सूबेदार गुरुदेव सिंह (जेसी-263239एफ), 19 अप्रैल 2004/01 मार्च 2004 *

नायब सूबेदार रमेश चन्द्र दास (जेसी-263335डब्ल्यू), 19 अप्रैल 2004/01 मार्च 2004 *

नायब सूबेदार महलबीर सिंह (जेसी-263724डब्ल्यू), 01 मार्च 2004

नायब सूबेदार तारलोक सिंह (जेसी-263350एल), 29 अप्रैल 2004/18 मार्च 2004 *

नायब सूबेदार अशोक कुमार मिश्रा (जेसी-261272ए), 26 जुलाई 2004/01 अप्रैल 2004 *

नायब सूबेदार दुली चन्द (जेसी-261750वाई), 17 मई 2004/01 अप्रैल 2004 *

नायब सूबेदार बाजीन्द्र सिंह (जेसी-263051एम), 01 जून 2004/01 अप्रैल 2004 *

नायब सूबेदार बीरबल सिंह (जेसी-263728एम), 10 जून 2004/01 अप्रैल 2004 *

नायब सूबेदार मुन्ना लाल (जेसी-263697एक्स), 15 मई 2004/01 अप्रैल 2004 *

नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जेसी-263804एच), 10 मई 2004/01 अप्रैल 2004 *

नायब सूबेदार सतेन्द्र सिंह (जेसी-264313के), 15 मई 2004/01 अप्रैल 2004 *

नायब सूबेदार मुरुगावेल (जेसी-264561ए), 05 जून 2004/01 अप्रैल 2004 *

नायब सूबेदार संजय दास (जेसी-264415ए), 17 जुलाई 2004/01 अप्रैल 2004 *

नायब सूबेदार सतपाल सिंह (जेसी-261315के), 06 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार मोती चन्द यादव (जेसी-263075डब्ल्यू), 27 अप्रैल 2004/06 अप्रैल 2004 *

नायब सूबेदार पवित्रन एन वी (जेसी-262613एम), 05 मई 2004/07 अप्रैल 2004 *

नायब सूबेदार समशेर सिंह (जेसी-261802के), 21 मई 2004/22 अप्रैल 2004 *

नायब सूबेदार शेर खान (जेसी-261603डब्ल्यू), 29 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार अजयमुल्ला साहिब (14369851एम अब जेसी-266840के), 26 मार्च 2004/01 अक्टूबर 2003 *

हवलदार क्लिटर राफेल सा (14474971के अब जेसी-266841एम), 10 जून 2004/10 फरवरी 2004 *

हवलदार जगदीश सिंह (14345618ए अब जेसी-266842पी), 14 मार्च 2004

बीएचएम नेमी चन्द (14355564एक्स अब जेसी-266843एक्स), 17 अप्रैल 2004/15 मार्च 2004 *

हवलदार लक्ष्मन सिंह (14461643एक्स अब जेसी-266844ए), 07 मई 2004/15 मार्च 2004 *

आरएचएम मोहम्मद सहाबुद्दीन एस के (14461695एन अब जेसी-266845एच), 13 अप्रैल 2004/23 मार्च 2004 *

हवलदार तेजा राम मतवा (14368340डब्ल्यू अब जेसी-266846एल), 26 अप्रैल 2004/24 मार्च 2004 *

हवलदार राजेन्द्र प्रसाद (14485172एन अब जेसी-266847एन), 09 मई 2004/01 अप्रैल 2004 *

हवलदार गोपाल सिंह (15102993के अब जेसी-266848डब्ल्यू), 21 अप्रैल 2004/01 अप्रैल 2004 *

हवलदार के कृष्णैया (14394043ए अब जेसी-266849वाई), 01 अप्रैल 2004

हवलदार रोडेप्पा तुलसी राम (14348619एन अब जेसी-266850एन), 15 अप्रैल 2004/01 अप्रैल 2004 *

हवलदार सत्यपाल (15110757एक्स अब जेसी-266851डब्ल्यू), 24 अप्रैल 2004/01 अप्रैल 2004 *

आरएचएम अनिमेश राय (14352576एफ अब जेसी-266852वाई),
01 मई 2004/25 अप्रैल 2004 *

हवलदार पी एन वेलू (14348502पी अब जेसी-266853एफ), 05
मई 2004/15 अप्रैल 2004 *

बीएचएम सफरुद्दीन बारबुया (14343093एच अब
जेसी-266854के), 28 अप्रैल 2004/24 अप्रैल 2004 *

आरएचएम राम किशन (14364157डब्ल्यू अब जेसी-266855एम),
01 जून 2004 *

हवलदार मादा राम (14357296एक्स अब जेसी-266856पी), 30
अप्रैल 2004/16 जून 2004 *

हवलदार सुन्दर लाल (14364244के अब जेसी-266857एक्स), 12
मार्च 2004/01 दिसम्बर 2003 *

बीएचएम रघुबीर सिंह (14341684एल अब जेसी-266858ए),
21 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004 *

बीएचएम धनश्याम सिंह (14463710डब्ल्यू अब जेसी-266859एच),
09 फरवरी 2004/06 जनवरी 2004 *

हवलदार दुर्गोधन आनंद जाधव (14352116ए अब
जेसी-266860एक्स), 06 मई 2004/15 जनवरी 2004 *

हवलदार राम प्रवेश शुक्ला (14461282के अब जेसी-266861ए),
12 मई 2004/06 फरवरी 2004 *

बीएचएम शशीधरन केजाका विटील (14363205एफ अब
जेसी-266862एच), 08 मई 2004/28 फरवरी 2004 *

हवलदार बासुदेव घोष (14351490डब्ल्यू अब जेसी-266863एल),
17 अप्रैल 2004/19 फरवरी 2004 *

हवलदार भैरो प्रसाद (14375072ए अब जेसी-266864एन), 27 मई
2004/01 मार्च 2004 *

हवलदार सत्यवीर (14357533डब्ल्यू अब जेसी-266865डब्ल्यू), 29
मार्च 2004/03 मार्च 2004 *

आरएचएम प्रेम सिंह (14465308एल अब जेसी-266866वाई), 06
अप्रैल 2004/13 मार्च 2004 *

हवलदार जय सिंह (14467517एफ अब जेसी-266867एफ), 15
मार्च 2004

बीएचएम घासीराम यादव (14355559एम अब जेसी-266868के),
03 जून 2004/01 अप्रैल 2004 *

हवलदार परसराम केसरकर (14489106एम अब जेसी-266869एम),
17 मई 2004/01 अप्रैल 2004 *

हवलदार अमरबहादुर (14363434के अब जेसी-266870एफ), 05
मई 2004/09 अप्रैल 2004 *

बीक्यूएमएच राजेन्द्र सिंह (14497164एफ अब जेसी-266871के),
09 जून 2004/12 मई 2004 *

नायब सूबेदार (जी डी) के पद में

हवलदार दिलबाग सिंह (14472489के अब जेसी-266545एफ),
29 दिसम्बर 2003/12 अगस्त 2003 *

हवलदार श्रवण कुमार (14354004वाई अब जेसी-266546के), 09
मार्च 2004/07 सितम्बर 2003 *

बीएचएम हरभजन सिंह (14469324ए अब जेसी-266547एम), 20
मार्च 2004/01 सितम्बर 2003 *

हवलदार रघीन्द्र नाथ घोष (14355702एन अब जेसी-266548पी),
09 मार्च 2004/05 अक्टूबर 2003 *

बीएचएम रवि शंकर मिश्रा (14464652के अब जेसी-266549एक्स),
11 जनवरी 2004/01 नवम्बर 2003 *

आरएचएम रघीन्द्र नाथ देव (14352949के अब जेसी-266550एम),
16 फरवरी 2004/01 दिसम्बर 2003 *

बीएचएम महेश चन्द (14467100एफ अब जेसी-266551पी),
22 फरवरी 2004/01 दिसम्बर 2003 *

बीएचएम कैलास चन्द (14341398के अब जेसी-266552एक्स),
16 फरवरी 2004/01 दिसम्बर 2003 *

हवलदार राजेन्द्र प्रसाद (14477115एक्स अब जेसी-266553ए), 16
फरवरी 2004/01 जनवरी 2004 *

हवलदार धरम सिंह (14467037एक्स अब जेसी-266554एच), 20
मार्च 2004/03 जनवरी 2004 *

हवलदार राही राम (14352833एक्स अब जेसी-266555एल), 19
फरवरी 2004/15 जनवरी 2004 *

हवलदार अरूप कृष्णा साहा (14469512एफ अब जेसी-266556एन),
19 फरवरी 2004/15 जनवरी 2004 *

आरएचएम चरन जीत सिंह (14456617एम अब
जेसी-266557डब्ल्यू), 01 फरवरी 2004

आरएचएम कुन्दन सिंह (14476420एक्स अब जेसी-266558वाई),
19 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004 *

बीएचएम नरेश सिंह (14477540एच अब जेसी-266559एफ), 01
मार्च 2004

आरएचएम दलित कुमार मंगल (14346419वाई अब
जेसी-266560डब्ल्यू), 19 मार्च 2004/01 मार्च 2004 *

आरएचएम सौदन सिंह (14342388एम अब जेसी-266562एफ),
29 अक्टूबर 2003

आरएचएम सिधा बहादुर चेत्री (14397936वाई अब
जेसी-266563के), 07 जनवरी 2004/01 दिसम्बर 2003 *

आरएचएम विक्रम सिंह (14396003एक्स अब जेसी-266564एम),
22 दिसम्बर 2003/01 दिसम्बर 2003 *

आरएचएम महावीर सिंह (14488395डब्ल्यू अब जेसी-266565पी),
05 दिसम्बर 2003/01 दिसम्बर 2003 *

आरएचएम राजेश कुमार (14384387एल अब जेसी-266566एक्स),
18 जनवरी 2004/01 जनवरी 2004 *

हवलदार गोपी चन्द (14462492डब्ल्यू अब जेसी-266567ए), 10
मार्च 2004/01 सितम्बर 2003 *

हवलदार लखविन्दर सिंह (14464543एक्स अब जेसी-266568एच),
19 फरवरी 2004/01 अक्टूबर 2003 *

आरएचएम प्रदीप कुमार एमके (14472985एल अब
जेसी-266569एल), 15 मार्च 2004/07 अक्टूबर 2003 *

आरएचएम मदाप्पा पी एस (14478494एल अब जेसी-266570ए),
15 मार्च 2004/10 अक्टूबर 2003 *

हवलदार महावीर (14485679पी अब जेसी-266571एच), 09 फरवरी
2004/22 अक्टूबर 2003 *

हवलदार साधू राम (14477049ए अब जेसी-266572एल), 22 फरवरी
2004/20 नवम्बर 2003 *

हवलदार बिरजू सिंह (14339707एच अब जेसी-266573एन), 10
मार्च 2004/21 नवम्बर 2003 *

बीएचएम राम विश्वास कुशवाहा (14356274एम अब
जेसी-266574डब्ल्यू), 06 फरवरी 2004/01 दिसम्बर 2003 *

हवलदार भगवान सिंह (14347606के अब जेसी-266575वाई), 03
फरवरी 2004/01 दिसम्बर 2003 *

हवलदार फूल प्रकाश (14472235एक्स अब जेसी-266576एफ),
08 जनवरी 2004/02 दिसम्बर 2003 *

आरएचएम राजेन्द्र प्रसाद (14371973पी अब जेसी-266577के),
09 फरवरी 2004/24 दिसम्बर 2003 *

आरएचएम शिवाजी तिवारी (14462401एफ अब जेसी-266578एम),
09 फरवरी 2004/01 जनवरी 2004 *

बीएचएम जोरा सिंह शर्मा (14463673एन अब जेसी-266579पी),
24 जनवरी 2004/13 जनवरी 2004 *

बीएचएम रसपाल सिंह (15100942एक्स अब जेसी-266580के),
01 मार्च 2004

बीएचएम राम फल (14464929एक्स अब जेसी-266581एम),
15 मार्च 2004/01 मार्च 2004 *

हवलदार सीता राम (14488862एच अब जेसी-266582पी),
04 मार्च 2004/01 मार्च 2004 *

हवलदार नारायण कनीयल (14477965एफ अब जेसी-266601पी),
06 अप्रैल 2004/19 अगस्त 2003 *

आरएचएम सतेन्द्र प्रसाद (14359726पी अब जेसी-266602एक्स),
24 फरवरी 2004/07 अक्टूबर 2003 *

हवलदार आर नारायणन (14390429एच अब जेसी-266603ए),
09 मार्च 2004/30 नवम्बर 2003 *

हवलदार दर्शन सिंह (14477456एच अब जेसी-266604एच),
22 मार्च 2004/01 दिसम्बर 2003 *

बीएचएम रनबीर सिंह (14462884के अब जेसी-266605एल),
29 दिसम्बर 2003/01 दिसम्बर 2003 *

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार कुलवन्त सिंह (14474606एच अब जेसी-266872एम),
15 मार्च 2004/01 अक्टूबर 2003 *

हवलदार श्रीराम रायसिंग शिन्दे (14358359पी अब जेसी-266873पी),
22 जून 2004/01 अक्टूबर 2003 *

हवलदार जी उमापती (14468741ए अब जेसी-266874एक्स),
16 मार्च 2004/01 दिसम्बर 2003 *

आरएचएम राधेश्याम (14474454एम अब जेसी-266875ए),
08 मई 2004/06 मार्च 2004 *

हवलदार रमेश के पी (14383806एल अब जेसी-266876एच),
28 जून 2004/08 मार्च 2004 *

हवलदार बलवन्त सिंह राना (14343655पी अब जेसी-266877एल),
23 मई 2004/15 मार्च 2004 *

बीएचएम राम किशन (14466148एच अब जेसी-266878एन), 01
अप्रैल 2004

हवलदार राजेन्द्र रामलाल जसवाल (14489688एन अब
जेसी-266879डब्ल्यू), 10 अप्रैल 2004/01 अप्रैल 2004 *

बीएचएम जग राम (14470461एल अब जेसी-266880एल), 16
अप्रैल 2004/01 अप्रैल 2004 *

हवलदार बी पौनूरंगम (14482474एन अब जेसी-266881एन), 24
अप्रैल 2004/03 अप्रैल 2004 *

आरएचएम राजेन्द्र सिंह (14358703एफ अब जेसी-266882डब्ल्यू),
03 मई 2004/06 अप्रैल 2004 *

हवलदार कृष्णा कुमार सिंह (14344503ए अब जेसी-266883वाई),
26 मई 2004/23 अप्रैल 2004 *

बीएचएम हुबलाल तिवारी (14349117एक्स अब जेसी-266884एफ),
01 मई 2004

हवलदार उमेद सिंह (14354690एक्स अब जेसी-266885के), 01
मई 2004

हवलदार राजेन्द्र सिंह (14463134एक्स अब जेसी-266886एम), 01
जून 2004

बीएचएम मूल सिंह (14468373डब्ल्यू अब जेसी-266887पी), 01
जुलाई 2004/25 जून 2004 *

हवलदार नन्दन सिंह चुफल (14488818वाई अब जेसी-266666एच),
15 अप्रैल 2004/26 सितम्बर 2003 *

हवलदार ओम प्रकाश (14363125ए अब जेसी-266667एल), 03
अप्रैल 2004/30 नवम्बर 2003 *

हवलदार हवा सिंह (1511118एच अब जेसी-266668एन), 04 फरवरी 2004/30 नवम्बर 2003 *

आरएचएम बुधपाल सिंह (14340729एन अब जेसी-266669डब्ल्यू), 28 दिसम्बर 2003/01 दिसम्बर 2003 *

हवलदार गौरी शंकर रे (14344364एफ अब जेसी-266670एल), 28 जनवरी 2004/10 जनवरी 2004 *

आरएचएम शिव चरन सॉ (14345293एक्स अब जेसी-266671एन), 23 फरवरी 2004/21 जनवरी 2004 *

हवलदार भागवन्त सिंह (14461742ए अब जेसी-266672डब्ल्यू), 31 मार्च 2004/29 जनवरी 2004 *

हवलदार राधाकृष्णन नायर वी (14369175एच अब जेसी-266673वाई), 16 मार्च 2004/30 जनवरी 2004 *

बीएचएम सुरीन्दर प्रसाद गुप्ता (14463591एल अब जेसी-266674एफ), 17 मार्च 2004/01 फरवरी 2004 *

हवलदार तरसेम सिंह (14456192वाई अब जेसी-266675के), 01 फरवरी 2004

हवलदार देवी सिंह (14467548एफ अब जेसी-266676एम), 04 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004 *

हवलदार प्रकाश चन्द शर्मा (सं. 14473318के अब जेसी-266677पी), 11 मार्च 2004/01 मार्च 2004 *

बीएचएम विश्वनाथ तरफदार (सं. 14355242एक्स अब जेसी-266678एक्स), 26 मार्च 2004/01 मार्च 2004 *

हवलदार बच्चु सिंह (सं. 14469650एच अब जेसी-266679ए), 23 मार्च 2004/01 मार्च 2004 *

हवलदार जयदेव कुमार जगन्नाथ चौधरी (सं. 14477149एल अब जेसी-266680पी), 18 मार्च 2004/03 मार्च 2004 *

हवलदार भवानी दत्त (सं. 14460429एच अब जेसी-266681एक्स), 01 अप्रैल 2004/25 मार्च 2004 *

हवलदार महेन्द्र सिंह (सं. 14365701वाई अब जेसी-266682ए), 15 मार्च 2004/01 मई 2003 *

हवलदार गंगा ओरम (सं. 14465584एन अब जेसी-266683एच), 27 मार्च 2004/20 मई 2003 *

बीएचएम बलबीर सिंह (सं. 14343241एम अब जेसी-266684एल), 14 फरवरी 2004/01 अगस्त 2003 *

हवलदार जगदीश सिंह शेखावत (सं. 15100776पी अब जेसी-266685एन), 14 फरवरी 2004/06 नवम्बर 2003 *

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 14367481वाई अब जेसी-266686डब्ल्यू), 14 फरवरी 2004/20 नवम्बर 2003 *

हवलदार जाधव धनाजी शिवाजी (सं. 15117060एम अब जेसी-266687वाई), 16 फरवरी 2004/30 नवम्बर 2003 *

हवलदार पी चन्द्र शेखरन (सं. 14374945एन अब जेसी-266688एफ), 06 मार्च 2004/30 नवम्बर 2003 *

हवलदार समशेर सिंह भारद्वाज (सं. 14346398डब्ल्यू अब जेसी-266689के), 12 मार्च 2004/01 दिसम्बर 2003 *

हवलदार पी घेलवदुराय (सं. 14351953ए अब जेसी-266690वाई), 27 जनवरी 2004/08 दिसम्बर 2003 *

हवलदार किशन लाल यादव (सं. 14385402एफ अब जेसी-266691एफ), 25 फरवरी 2004/01 फरवरी 2004 *

बीएचएम सदाविरप्पा (सं. 14364367डब्ल्यू अब जेसी-266692के), 31 मार्च 2004/01 फरवरी 2004 *

हवलदार अशोक सिंह राजपुत (सं. 14346435डब्ल्यू अब जेसी-266693एम), 01 मार्च 2004

हवलदार सुसील कुमार (सं. 14471006पी अब जेसी-266694पी), 26 मार्च 2004/17 मार्च 2004 *

आरएचएम जगदेव सिंह (सं. 14463819डब्ल्यू अब जेसी-266695एक्स), 01 अप्रैल 2004/25 मार्च 2004 *

हवलदार बाबू लाल (सं. 14464867एच अब जेसी-266696ए), 31 मार्च 2004/25 मार्च 2004 *

हवलदार याद राम (सं. 14470273के अब जेसी-266697एच), 02 अप्रैल 2004/01 अप्रैल 2004 *

* (स्पष्टीकरण प्राप्त)

र. चतुर्वेदी
अवर सचिव

सं. 648, दिनांक 3 दिसम्बर 2004--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना
सेना शिक्षा कोर
सूबेदार के रैंक में

पीए सूबेदार मुनीश कुमार (जेसी-802811एल), 15 जुलाई 2004×

पीए सूबेदार चंचल सिंह राय (जेसी-802816के), 16 अगस्त 2004×
×(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जाएगी)

पीए सूबेदार राम प्रकाश सिंह (जेसी-802822एक्स), 22 जुलाई 2004:
:(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जाएगी)

पीए सूबेदार महेश चंद्र (जेसी-802830डब्ल्यू), 02 सितम्बर 2004=

पीए सूबेदार वेद प्रकाश द्विवेदी (जेसी-802831वाई), 01 अगस्त 2004

पीए सूबेदार नखता राम (जेसी-802833के), 01 अगस्त 2004

= (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाएगी)

पीए सूबेदार जगदीश चन्द्र (जेसी-802836एक्स), 01 सितम्बर 2004

पीए सूबेदार उमेश दत्त भारद्वाज (जेसी-802839एल), 01 सितम्बर 2004

विजय कपूर
अवर सचिव

सं. 649, दिनांक 9 दिसम्बर 2004--राष्ट्रपति सहर्ष, निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :--

नियमित सेना
अल्पकालिक सेवा कमीशन
सेना चिकित्सा सेवा
कप्तान से मेजर के पद पर

कप्तान कमल सिंह एन टी आर-16602वाई एएमसी/एन टी, 30 दिसम्बर 2002

सेना चिकित्सा सेवा
कप्तान से मेजर

कप्तान हरिदास (एन टी एस-17425पी अब एन टी आर-16683एच ए एम सी (गैर तकनीकी), 05 जुलाई 98

(भारत सरकार के राजपत्र को दिनांक 30 जनवरी 99 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना के संबंध जहाँ तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

अल्पकालिक सेवा कमीशन
सेना चिकित्सा सेवा
कप्तान से मेजर के पद पर

कप्तान यू एस दुबे एन टी आर-16647एक्स एएमसी/एन टी, 22 दिसम्बर 2002

एम एस-13822डब्ल्यू कप्तान सी कानन, 19 जुलाई 2003

एम एस-13787वाई कप्तान टी वी सुधा मोहन, 31 अगस्त 2003

एम एस-13726एफ कप्तान स्निग्धा पड्डालवार, 22 अक्टूबर 2003

एम एस-13728एम कप्तान ए अरुण किशोर, 27 अक्टूबर 2003

एम एस-13729पी कप्तान सीमा प्रसाद, 27 अक्टूबर 2003

एम एस-13731एम कप्तान विकास शर्मा, 01 नवम्बर 2003

एम एस-13798एल कप्तान आरती सिंह 03 जनवरी 2004

एम एस-13810एफ कप्तान बी आर दयानन्द, 13 जनवरी 2004

एम एस-13809एम कप्तान निरंजन मैसूर सोमशेखर, 02 फरवरी 2004

एम एस-13792के कप्तान ज्योति जोस, 19 फरवरी 2004

एम एस-13837वाई कप्तान जे उमा शंकर, 14 जुलाई 2003

एम/एस-13831एक्स कप्तान एम वी अनन्द कुमार, 24 सितम्बर 2003

एम/एस-13860एम कप्तान रोहित बोहरा, 01 अक्टूबर 2003

एम एस-13858पी कप्तान संदीप मिश्रा, 30 अक्टूबर 2003

एम एस-13850एच कप्तान दिपल्ली त्रिपाठी, 01 नवम्बर 2003

एम एस-13841एफ कप्तान नम्बियार सफना श्रीधरन, 05 नवम्बर 2003

एम एस-13845एक्स कप्तान कुमार के एस, 10 फरवरी 2004

एम एस-13861पी कप्तान शिव शंकर, 11 फरवरी 2004

एम/एस-13827पी कप्तान सान्तेरे मनजीत, 25 फरवरी 2004

एम/एस-13893एक्स कप्तान दरीन शाका, 16 जुलाई 2003

एम एस-13877ए कप्तान रेनु शर्मा, 23 अगस्त 2003

एम/एस-13881एच कप्तान जसबीर सिंह, 23 अगस्त 2003

एम/एस-13894ए कप्तान अमित हांडा, 27 अगस्त 2003

एम एस-13888एच कप्तान प्रशान्त कुमार सानीग्रही, 01 नवम्बर 2003

एम एस-13898डब्ल्यू कप्तान गुरुप्रीत कौर गिल, 05 नवम्बर 2003

एम एस-13868वाई कप्तान आर सुन्दर, 11 अक्टूबर 2003

एम/एस-13873के कप्तान अनिल कुमार गुप्ता, 11 अक्टूबर 2003

एम एस-13878एच कप्तान आदित्य गुप्ता, 02 दिसम्बर 2003

एम एस-13864एम कप्तान विनोद कुमार, 08 दिसम्बर 2003

एम एस-13951डब्ल्यू कप्तान वन्दना राणा, 01 जून 2002

एम एस-13511एच कप्तान मंजुनाथ एच.के., 15 फरवरी 2003

एम एस-13889पी कप्तान अश्वनी कुमार भारद्वाज, 02 मई 2003

एम एस-13940के कप्तान सुबीर कुमार रोहतगी, 12 जुलाई 2003

एम एस-13957एक्स कप्तान शैलेष कुमार त्रिपाठी, 18 अक्टूबर 2003

एम एस-13961ए कप्तान अभय कुमार दास, 29 अक्टूबर 2003

एम एस-13954 डब्ल्यू कप्तान एस चौधरी, 11 नवम्बर 2003

एम एस-13956पी कप्तान सुरेश ए, 11 नवम्बर 2003

एम एस-13953एफ कप्तान प्रदीप एच, 13 नवम्बर 2003

एम एस-13847एच कप्तान देवेन्द्र दितकरराव घोड़पड़े, 15 नवम्बर 2003

एम एस-13946एल कप्तान (श्रीमती) सबीना रोशन, 03 जनवरी 2004

एम एस-13966वाई कप्तान माहेश्वरा एन, 14 फरवरी 2004

एम एस-14021-एफ कप्तान श्रीधर आर, 19 जुलाई 2003

एम एस-14047-डब्ल्यू कप्तान विभूति भट्टनागर, 10 अगस्त 2003

एम एस-13996-डब्ल्यू कप्तान दिल राज सिंह, 25 अक्टूबर 2003

एम एस-14001-एन कप्तान पायल, 14 दिसम्बर 2003

एम एस-13997-वाई कप्तान सुरेश पाण्डे, 10 जनवरी 2004
 एम एस-14336-एल कप्तान नरेन्द्र नाथ पी के, 21 जनवरी 2004
 एम एस-14003-वाई कप्तान अजित कुमार पाधे, 23 जनवरी 2004
 एम एस-13990-पी कप्तान विनय कुमार के, 09 फरवरी 2004
 एम एस-13999-के कप्तान पूर्वानन जी, 23 मार्च 2004
 एम एस-13920-डब्ल्यू कप्तान पवार वाई उस, 1 अप्रैल 2004
 एम एस-13912-एक्स कप्तान दिनेश कुमार, 24 मई 2003
 एम एस-14020-वाई कप्तान प्रदीप मिश्रा, 09 जुलाई 2003
 एम एस-13921-वाई कप्तान महिपाल सिंह, 16 अक्टूबर 2003
 एम एस-13903-डब्ल्यू कप्तान धीमन कुमार मण्डल, 30 अक्टूबर 2003
 एम एस-13925-पी कप्तान नवदीप सिंह पुरी, 3 नवम्बर 2003
 एम एस-13934-डब्ल्यू कप्तान राज कुमार अरोड़ा, 10 नवम्बर 2003
 एम एस-13909-एक्स कप्तान (श्रीमती) अनुराधा बहल, 17 नवम्बर 2003
 एम एस-13908-पी कप्तान अनुपमा मेहता, 29 नवम्बर 2003
 एम एस-13901-एल कप्तान (कु.) प्रीति त्रिपाठी, 11 दिसम्बर 2003
 एम एस-13916-एन कप्तान सुनील वर्मा, 14 दिसम्बर 2003
 एम एस-13938-एम कप्तान सयाकत मौलिक, 07 फरवरी 2004

स्थायी कमीशन

सेना चिकित्सा सेवा

लेफ्टिनेंट से कप्तान

लेफ्टि सत्येन्द्र कुमार सिंह (एन टी एस-17433-एन अब एन टी आर-16684-एल), ए एम सी (गैर तकनीकी), 05 जुलाई 1991

(भारत सरकार के राजपत्र को दिनांक 22 अक्टूबर 1991 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना के संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

लेफ्टि हरि दास (एन टी एस-17425-पी अब एन टी आर-16683-एच), ए एम सी (गैर तकनीकी), 05 जुलाई 1991

(भारत सरकार के राजपत्र को दिनांक 22 अक्टूबर 1991 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना के संबंध जहां तक अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

एम श्रीवास्तव,

ब्रिगेडियर

उप महानिदेशक, स. से. चि. सेवा (कार्मिक)

वायु सेना मुख्यालय

सं. 650, दिनांक 3 दिसम्बर 2004--राष्ट्रपति सहर्ष, निम्नलिखित निजी सचिव (ग्रुप 'ख' राजपत्रित) को सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक

सेवा में तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव, (ग्रुप 'क' राजपत्रित), वेतनमान 10000-15200 के पद पर दिनांक 02 जुलाई 2004 (पूर्वाह्न) से दिनांक 31 दिसम्बर 2004 तक की अवधि के लिए या नियमित अधिकारियों के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, पदोन्नत करते हैं :--

क. श्री भीम सैन

ख. श्री डी एस सन्धू

ग. श्री के एस पिल्लई

घ. श्री के जकारिया

यह पदोन्नति पूर्णतः अस्थाई आधार पर की गई है तथा प्रशासनिक कारणों पर बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

उपर्युक्त पद पर स्थाई पदोन्नति के लिए उनका न तो कोई दावा होगा न ही उनकी तदर्थ आधार पर की गई नियुक्ति की अवधि को वरिष्ठता के लिए गिना जाएगा।

सन्तोष दासगुप्ता

उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सं. 651, दिनांक 9 दिसम्बर 2004--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियों मूल रैंक में करते हैं :--

भारतीय वायु सेना

उड़ान (पायलट) शाखा

फ्लाईट लेफ्टिनेंट की मूल स्क्वाड्रन लीडर के रैंक में

एन शर्मा (23138), आर बी सिंह (23139), वी. एस. धाण्डा (23142)--दिनांक 03 सितम्बर 2004 से।

वी. शर्मा (21997)--दिनांक 14 मार्च 2003 से।

प्रशासनिक शाखा

फ्लाईंग आफिसर की मूल फ्लाईट लेफ्टिनेंट रैंक में

नरिन्द्र सिंह (26207)--दिनांक 05 जुलाई 2004 से।

वैमानिक इंजीनियरिंग शाखा

फ्लाईंग आफिसर से फ्लाईट लेफ्टिनेंट के मूल रैंक में

गुनसीलन डी पॉल (25785) वै. इ. (वै), 05 जनवरी 2004

एस. श्रीवास्तव

स्क्वाड्रन लीडर

डी डी पी ओ-3 (डी)

सं. 652, दिनांक 3 दिसम्बर 2004--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी श्री दौलत राम की अधिवर्षिता आयु होने पर उन्हें 30 नवम्बर 2004 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त करते हैं।

वी. सरस्वती

उप सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 25th December 2004

No. 640, dated 3rd December 2004.—In partial modification of this Ministry's Notification issued under even number, dated 26.4.2004, Shri R.B. Bloni, Assistant borne on the CSS Cadre of Ministry of Defence, is appointed as Section Officer on ad-hoc basis in the Ministry with effect from 1.4.2004. The other terms and conditions of his ad-hoc appointment will remain unchanged.

V SARASWATHY
Dy. Secy.

(ARMY BRANCH)

No. 641, dated 9th December 2004.—The President is pleased to make the following appointment for a period of 5 years under AI 75/78 as amended by AI 14/79.

REGULAR ARMY
SHORT SERVICE COMMISSION

(To be Capt on probation)

- Capt Barnali Mukhopadhyay, MS-14303-A, AMC, 21.1.2002
 Capt Bidhan Roy, MS-14350-X, AMC, 18.2.2002
 Capt Shamim Mohammad Mannan, MS-14373-Y, AMC, 21.1.2002
 Capt Ashok Kumar, MS-14453-W, AMC, 8.3.2002
 Capt Bharath Kumar N, MS-14457-M, AMC, 19.12.2002
 Capt Awanish Karan, MS-14458-P, AMC, 19.12.2002
 Capt (Miss) Meena Jatvindu, MS-14459-X, AMC, 19.12.2002
 Capt Hari Baskar S, MS-14460-M, AMC, 19.12.2002
 Capt Amarpal Singh, MS-14463-A, AMC, 19.12.2002
 Capt Samar Veer Singh, MS-14486-F, AMC, 19.12.2002
 Capt Rajni Kant Tiwari, MS-14491-M, AMC, 19.12.2002
 Capt Lokesh Chauhan, MS-14496-L, AMC, 19.12.2002
 Capt Satish Somayya Jeevanavar, MS-14613-L, AMC, 27.3.2003
 Capt Nikhil SBhardwaj, MS-14616-Y, AMC, 29.3.2003

(To be Flt Lt on probation)

- Flt Lt Harvinder Pal Singh Sahota, MS-14505-F, AMC, 7.1.2003
 Flt Lt Surender Singh, MS-14632-W, AMC, 30.6.2003
 Flg Offr Subramanya U, MS-14647-Y/AF-26924-H, AMC, 24.1.2003

(Promoted to the rank of Flt Lt wef 10.10.2003 on completion of internship)

Flt Lt Manjith Singh Partola, MS-14648-F/AF-26926, AMC, 19.2.2003

Flg Offr Ruchi Khurana, MS-14651-F/AF-26946-G, AMC, 24.3.2003

(Promoted to the rank of Flt Lt wef 01.09.2003 on completion of internship)

Flt Lt Yateendra Dinker, MS-14659-N/AF-26929, 13.1.2003

Flt Lt Amol Vinayakrao Chitnis, MS-14660-H/26923-F, AMC, 20.1.2003

Flt Lt Vishwajit Lal Srivastava, MS-14702-K/AF-26925, AMC, 25.1.2003

Flt Lt Sunita Desairao Patil, MS-14703-M/AF-26935, AMC, 16.4.2003

Ujjawal Singh Tanwar, MS-14108-H/AF-26070-R, 22.1.2001

With seniority for pay and promotion from 22.01.99 (this includes 24 months antedate for Post Graduate Qualification M.S. (Gen. Surgery) which will not count for gratuity).

The President is pleased to make the following appointment for a period of 5 years under AI 75/78 as amended.

REGULAR ARMY
SHORT SERVICE COMMISSION

(To be Flt Lt on probation)

Flg Offr Rakesh Gupta, MS-14028-L/AF-25590-N, AMC, 15.11.1999

(Promoted to the rank of Flt Lt wef 15.05.2000 on completion of internship)

Flt Lt Yogesh Chandra, MS-14053-K/AF-25586-K, AMC, 12.10.1999

Flt Lt Jyothi Prasad M S, MS-14080-N/AF-26030-N, AMC, 3.2.2000

Flt Lt (Mrs) Yashodha Koppal, MS-14110-A, AMC, 3.10.1997

Flt Lt Sharma Garima Chandra Shekhar, MS-14187-H/AF-26056, AMC, 1.1.2001

Flt Lt S Inbarasu, MS-14241-L/AF-26072-B, AMC, 23.1.2001

Flt Lt Umesh Gupta, MS-14261-Y/AF-26471-H, AMC, 7.6.2001

Flt Lt Harsh Abbott, MS-14500-H, AMC, 21.1.2002

Flt Lt Sarita Panwar, MS-14551-W/AF-26506-R, AMC, 22.2.2002

Flt Lt Atul Goyal, MS-14634-F/AF-25583, AMC, 27.9.1999

Flt Lt Satyajit Pati, MS-14635-K/AF-26485-H, AMC, 21.1.2002

Flt Lt Debasish Mahapatra, MS-14175-N/AF-26061-N, AMC, 10.1.2001

Flt Lt Mohd Imran Ghor, MS-14185-X/AF-26033-F, AMC, 29.12.2000

Flt Lt Vijai MN, MS-14190-H/AF-26064-F, AMC, 11.1.2001

Flt Lt Abha Malik, MS-14504-Y/AF-26915-G, AMC, 5.8.2002

Flt Lt (Miss) Shalini Somnath, MS-14638-X/AF-25554-G, AMC, 15.1.1999

Flt Lt Gulshan Kumar Garg, MS-14645-N/AF-26921-G, AMC, 27.12.2002

Flt Lt Srinivasa Prabhu M, MS-14658-L/AF-26903, AMC, 12.3.2002

M. SRIVASTAVA
Brig.
Dy. DGAFMS (P)

No. 642, dated 8th December 2004.—The President is pleased to make the following appointment :—

(REGULAR ARMY)
SHORT SERVICE COMMISSION.

Mitali Madhumita (WS-00458K) AEC has completed Short Service Commission (on probation) in the rank of Lt for six months commencing 04 Mar 2000. Mitali Madhumita (WS-00458K) with seniority next below Lt Sonam Jain (WS-00457F) AOC is granted Short Service Commission for a period of five years in the rank of Lt w.e.f. 04 Mar 2000 under the provision of SAI 1/S/92 as amended.

To be Lt

The undermentioned officer of SSC(NT)-76 Course has completed his Short Service Commission on probation for six months commencing from 06 Sep 2003. He is granted Short Service Commission in the rank of Lt for a period of five years wef 06 Sep 2003 under the provisions of SAI 3/S/98 as amended :—

Tekawade Atul Maruti (SS-40276Y), ADA with seniority next below Lt Harmik Singh (SS-40275W), AOC whose name appeared in the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 10 Jul 2004.

SK SHARMA
Maj
DAMS 8B

AIR HEADQUARTERS

No. 643, dated 3rd December 2004.—The President is pleased to appoint Shri PK Sarkar, Assistant as officiating Section Officer (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 under Rule 7(8) of AFHQ Civil Service Rules, 2001 with effect from 30 Jul 2004 to 24 Aug 2004 or till such time the individual retires or till regular incumbent becomes available, whichever is earlier.

2. The above appointment is made purely as stopgap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

SANTOSH DASGUPTA
Dy. Chief Administrative Officer

(AIR BRANCH)

No. 644, dated 9th December 2004.—The President is pleased to award Permanent Commission and Wings (On Probation) to the undermentioned flight cadets in the rank of Fg Offr under the provisions of AFO 59/98. These officers will be eligible for grant of flying pay with effect from the date of grant of PC & Wings (On Probation) i.e. 17 Jun 2000.

INDIAN AIR FORCE
FLYING (PILOT) BRANCH

Ex-Flight Cadets to be Flying Officers

Fg Offr Anil Pratap Singh (26086), Guru Nandan Singh (26095), Aleaparambil Babu Prajit Babu (26104), Ankit Sood (26107), Geetesh Kumar Sah (26111), Bandaru Jagdeep (26115) wef 17 Jun 2000.

S SRIVASTAVA
Sqn Ldr
DDPO-3(D)

AIR HEADQUARTERS

No. 645, dated 3rd December 2004.—The President is pleased to extend the appointment of the following Personal Assistants of AFHQ Stenographer's Service as Personal Secretary (Group 'B' Gazetted) on temporary basis in the pay scale of Rs. 6500-200-10000, beyond 30 Jun 2004 till 31 Dec 2004 or till persons from Select List become available or till the individual retires, whichever is earlier :—

Sl. No. Name (S/Shri)

- (a) LN Gupta
- (b) Pradeep Kapoor
- (c) AP Ahuja
- (d) Smt Geetha Jayakumar
- (e) Smt Cynthia Kapoor
- (f) TC Arora
- (g) Km Radha Rajan
- (h) VK Sarpal
- (i) Bal Krishan
- (k) KCB Raja
- (l) Smt Santosh Dewan
- (m) Ramesh Aswani
- (n) SK Sachdeva
- (o) AK Chhibar

2. The promotion shall be subjected to the following conditions :—

- (a) Their appointment is purely on temporary basis and shall be terminated on administrative ground without issuing any prior notice to this effect.
- (b) The officers shall have no claim for regular promotion/ appointment on the basis of this promotion granted now nor will their period of such appointment count towards seniority in the grade of PPS.

SANTOSH DASGUPTA
Dy. Chief Administrative Officer

(ARMY BRANCH)

No. 646, dated 9th December 2004.—The President is pleased to confirm the under mentioned AMC/SSC (Non Tech) officers consequent on completion of the probationary period :—

REGULAR ARMY
SHORT SERVICE COMMISSION

Army Medical Corps (Non Tech)

Lt Bagadhi Chandrasekhar Rao, NTS-17464N, 24-04-2002
Lt Shinde Rajkumar Dnyandeo, NTS-17467Y, 24-04-2002
Lt Christopher Heppollette, NTS-17465W, 24-04-2002
Lt A Sukumar, NTS-17468K, 24-04-2002
Lt RD Thangkhiew, NTS-17480L, 26-04-2002
Lt Varun Srivastava, NTS-17471K, 24-04-2002
Lt Sushil Singh, NTS-17475A, 24-04-2002
Lt Jamlal Guite, NTS-17482W, 27-04-2002
Lt Palanivel R, NTS-17477L, 24-04-2002
Lt Raju P, NTS-17472M, 24-04-2002
Lt Laishram Deban Singh, NTS-17478N, 24-04-2002

M. SRIVASTAVA
Brig
Dy DGAFMS (P)

ARMY BRANCH

REGULAR ARMY

Army Service Corps (MT & Supply)

No. 64, dated 6th December 2004.—The President is pleased to make the following promotions :—

To be Subedar Major (MT)

Subedar Hareshwar Pandey (JC-660882N), 13 Jul 2004/01 Sep 2003*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allces)

Subedar Dilli Kishor Nayak (JC-660917W), 14 Nov 2003/01 Oct 2003*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allces)

Subedar Madheshwar Singh (JC-660778A), 01 Jan 2004

Subedar Chandgi Ram (JC-660733A), 01 Feb 2004

Subedar Ajit Kumar Gupta (JC-660792M), 02 Feb 2004/01 Feb 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allces)

Subedar Ranbir Singh Chauhan (JC-660699L), 01 Mar 2004

Subedar Rameshwar Singh (JC-660856M), 01 Mar 2004

Subedar Buchhe Shivaji Moti Ram (JC-660899F), 08 Mar 2004/01 Mar 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allces)

Subedar Chakradhar Nayak (JC-660878L), 01 Apr 2004

Subedar Ajaib Singh (JC-660900L), 01 Apr 2004

Subedar Ramesh Prasad Singh (JC-660912M), 19 Apr 2004/01 Apr 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allces)

Subedar Ram Dular Sharma (JC-660913H), 02 Apr 2004/01 Apr 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allces)

Subedar Kukdip Rai (JC-660962L), 01 May 2004

Subedar Deo Saran Ram (JC-661077W), 01 May 2004

Subedar Dhani Ram (JC-660964W), 01 May 2004

Subedar Surinder Singh (JC-660905W), 12 May 2004/01 May 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allces)

Subedar N R Badatya (JC-660966F), 26 Jun 2004/01 Jun 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allces)

Subedar Valsalan T (JC-661114Y), 01 Jul 2004

Subedar Satya Narain (JC-660974A), 02 Aug 2004/01 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allces)

Subedar S Jalaluddin (JC-660999M), 02 Aug 2004/01 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allces)

Subedar Thomas TT (JC-661176Y), 01 Aug 2004

Subedar Ram Kishan (JC-661083K), 01 Aug 2004

Subedar Anup Singh (JC-660985M), 10 Aug 2004/01 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allces)

Subedar Ashwani Kumar Kashyap (JC-661094W), 02 Aug 2004/01 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay allces)

Subedar Ram Naresh Maurya (JC-661204A), 01 Aug 2004

Subedar Romesh Chander (JC-661042A), 09 Sep 2004/01 Sep 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on Pay and allces)

Subedar Ram Phal Singh (JC-661129F), 02 Sep 2004/01 Sep 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allces)

Subedar Pandav Ghanir Das Dhulji Bhai (JC-661206L), 01 Sep 2004

To be Subedar Major (PA)

Subedar Sampuran Chand (JC-202640M), 01 Apr 2004*

Subedar Unnikrishnan P (JC-217299X), 01 May 2004

Subedar Damodaran Choruvadathil (JC-640260L), 03 Aug 2004/01 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allces)

Subedar Kewal Singh (JC-640430K), 01 Aug 2004

To be Subedar Major Clk (GD/SD)

Subedar Bhoop Singh (JC-640615L), 01 Jan 2004

Subedar Shaji V (JC-640282), 01 May 2004

Subedar M Duraisamy (JC-640757H), 01 Aug 2004

Subedar Dimbeswar Das (JC-640594A), 01 Sep 2004

Subedar Satpal Singh (JC-640618Y), 04 Oct 2004/01 Oct 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allces)

To be Subedar Major Clk (GD)

Subedar Surendra Varma Raja CR (JC-640316M), 01 Feb 2004

Subedar Jagdish Prasad Jangid (JC-640175H), 01 Mar 2004

Subedar Rama Krishnan R (JC-640211H), 01 Mar 2004

Subedar Ashok L Pawar (JC-640223X), 01 Mar 2004

Subedar Satlem Venugopal Rao (JC-640238A), 01 Mar 2004

Subedar Jaleshwar Prasad Singh (JC-640241A), 01 Mar 2004

Subedar Shiv Parshad Sharma (JC-640306H), 01 May 2004

Subedar Gouranga Chandra Mondal (JC-640322A), 01 Jul 2004

Subedar Om Prakash Singh (JC-640478X), 02 Aug 2004/01 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allces)

Subedar Veeranna Havaladar (JC-640479A), 02 Aug 2004/01 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allces)

Subedar Prasobhan CS (JC-640480P), 11 Sep 2004/01 Sep 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allces)

Subedar Ashwani Kumar Sharma (JC-640481X), 01 Sep 2004

Subedar Raghunath Prasad Sad (JC-640484L), 01 Oct 2004

To be Subedar Maj : SKT

Subedar Ram Avtar Singh (JC-213848P), 30 Dec 2003/01 Sep 2003*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allces)

Subedar Joga Ram (JC-223357M), 03 Feb 2004/01 Feb 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allces)

Subedar Baga Ram (JC-213664W), 16 Feb 2004/01 Feb 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allces)

Subedar Tajbar Singh (JC-213782K), 01 Apr 2004

Subedar Bhim Singh (JC-213784P), 05 Apr 2004/01 Apr 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allces)

Subedar Rukam Pal Singh (JC-213800F), 05 Apr 2004/01 Apr 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allces)

Subedar Mangal Singh Rawat (JC-213685W), 01 Mar 2004

Subedar Hari Singh Verma (JC-213790H), 01 Apr 2004

Subedar Subhash Chander (JC-213817F), 07 May 2004/01 May 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allces)

Subedar Suresh Chand (JC-213811N), 01 May 2004

Subedar Madhan Singh Dharmi (JC-213816M), 14 May 2004/
01 May 2004*

*(Gtd Seniority in the rank of Sub Maj without effect on
pay and allces)

Subedar Surendra Singh (JC-213815K), 01 May 2004

Subedar J Arumugam (JC-213819A), 03 Jun 2004/01 Jun
2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on
pay and allces)

Subedar Subhas Chandra Biswas (JC-213851P), 01 Jul 2004

Subedar Samir Kumar Ghosh (JC-213859F), 14 Aug 2004/
01 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on
pay and allces)

Subedar Gulab Singh (JC-213854H), 01 Aug 2004

Subedar Narayanan TT (JC-213860W), 01 Sep 2004

Subedar Chandra Ketu Tripathi (JC-215482), 01 Oct 2004

Subedar Resham Singh (JC-215484M), 01 Oct 2004

To be Naib Subedar : Personal Assistant

Hav Goda Sekha Rao (No. 14474732P now JC-643155A), 01
Feb 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Naib Sub wef 01 Mar 2003
without effect on pay and allces)

Hav Ramesh Chandran K. (No. 9085646N now JC-643156H),
01 Oct 2003

Hav Tamizul Hasan (No. 14477883Y now JC-643157L),
06 Feb 2003*

*(Gtd seniority in the rank of Naib Sub wef 01 Oct 2003
without effect on pay and allces)

Hav Dal Bahadar Pal (No. 6378081F now JC-643158N),
01 Mar 2004

Hav Anil Kumar Sinha (No. 6378135X now JC-643159W),
01 Mar 2004

Hav Babulal Choudhary (No. 6378335N now JC-643160L),
01 Apr 2004

Hav Pramod Kumar (No. 2778709N now JC-643161N),
05 Apr 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Naib Sub wef 01 Apr 2004
without effect on pay and allces)

Hav Narayanan S (No. 6378580W now JC-643162W),
01 Apr 2004

Hav Baldev Singh (No. 14371818N now JC-643163Y),
01 Apr 2004

Hav Bhagwan Singh (No. 2988311F now JC-643164F),
01 Apr 2004

4—384 GI/2004

Hav Shiah Pal Singh (No. 6650049P now JC-643165K),
01 Apr 2004

Hav Pramod Narain Singh (No. 13883073K now JC-
643166M), 01 Apr 2004

Hav Jitender Kumar Jha (No. 14356433Y now JC-643177Y),
01 May 2004

Hav Mahak Singh (No. 6376141M now JC-643178F),
01 May 2004

Hav Mangal Singh Rana (No. 6916911F now JC-643179K),
01 May 2004

Hav Lakshuman Prasad (No. 6378681K now JC-643229K),
21 May 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Naib Sub wef 01 Apr 2004
without effect on pay and allces)

Hav Subhash Chander (No. 2984011X now JC-643230P),
01 Jun 2004

Hav Devinder Singh (No. 9085618F now JC-643231F),
01 Jun 2004

Hav Venugopalan KK (No. 6378906F now JC-643232K),
01 Jun 2004

Hav Bhoopalan D (No. 2884947L now JC-643233M),
01 Jun 2004

Hav Praveen Singh Mehta (No. 2884729M now JC-
643234P), 01 Jun 2004

Hav Dharam Singh (No. 6376191X Now JC-662865M),
01 Aug 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Naib Sub wef 01 Sep 2003
without effect on pay and allces)

Hav Kabindra Mandal (No. 6650048M now JC-662866P),
01 Sep 2004

To be Naib Subedar : Clk (GD/SD)

Hav Ramesh Chand Rana (No. 6376487W now JC-
643129Y), 01 Feb 2004

Hav Dinesh Chandra Dubey (No. 6376498H now JC-
643167P), 01 Feb 2004

Hav Rohitashw Kumar Yadav (No. 6376516A now JC-
643168X), 01 Feb 2004

Hav Asharphi Lal (No. 6376646H Now JC-643169A),
01 Mar 2004

Hav Ram Kishor Mishra (No. 6376388W now JC-643170P),
30 Mar 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Naib Sub wef 01 Jul 2003
without effect on pay and allces)

Hav Bidhan Chandra Biswas (No. 6375855N now JC-
643171X), 01 Apr 2004

Hav Sree Kumar NC (No. 6383470L now JC-643172A), 01 Feb 2004*

*(Gtd Seniority in the rank of Naib Sub wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allces)

Hav Rambir Singh (No. 6376627X now JC-643173H), 01 Mar 2004

Hav Asha Ram (No. 6375876K now JC-643174L), 01 Apr 2004

Hav P Babu (No. 6376687M now JC-643175M), 01 May 2004

Hav Shanti Prasad Nautiyal (No. 6376743A now JC-643176W), 01 May 2004

Hav Dharam Pal (No. 6376489F now JC-643235X), 02 Jun 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Naib Sub wef 01 Feb 2004 without effect on pay and allces)

Hav Ganesh Kumar R (No. 6383629L now JC-643236A), 01 Jan 2004

Hav Sanwar Mal Saini (No. 6376331Y now JC-643237H), 16 Apr 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Naib Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allces)

Hav P Mutharasu (No. 6383018W now JC-643238L), 01 Jul 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Naib Sub wef 20 Mar 2004 without effect on pay and allces)

Hav Hardip Singh (No. 6383577A now JC-643239N), 01 Jul 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Naib Sub wef 20 Mar 2004 without effect on pay and allces)

Hav Rattan Chand (No. 6376524Y now JC-643240H), 01 Jul 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Naib Sub wef 20 Mar 2004 without effect on pay and allces)

Hav PT Oommen (No. 6376940H now JC-643241L), 01 Jul 2004

Hav Ilmu Din (No. 6376946K now JC-643242N), 01 Jul 2004

Hav Ramlinga Prasad G (No. 6390223A now JC-662867X), 01 Feb 2003

Hav Balbir Singh (No. 6376947M now JC-662868A), 01 Aug 2004

Hav Avay Kumar Jha (No. 6376619Y now JC-662869H), 01 Aug 2004

Hav Sodhagar Singh Jamwal (No. 6376387L now JC-662870X), 01 Sep 2004

Hav Ikkuurthi Venkata Rao (No. 6376361W now JC-662871A), 06 Sep 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Naib Sub wef 01 Sep 2004 without effect on pay and allces)

Hav Birsa Elias Minj (No. 6376213L now JC-662872H), 01 Sep 2004

Hav Sankat Mochan Pandey (No. 6376440L now JC-662873L), 05 Sep 2004*

*(Gtd seniority in the rank of Naib Sub wef 01 Sep 2004 without effect on pay and allces)

Hav Ashok Kumar Jakhar (No. 6382999Y now JC-662874N), 01 Sep 2004

PIONEER CORPS

To be Nb Sub (GD)

Hav (GD) Radha Kanta Debnath (No. 8026175X now JC-829303Y), 16 May 2004*

Hav (GD) Birender Lal (No. 8028627N now JC-829304F), 01 Jun 2004

Hav (GD) Vinod Kumar Choudhary (No. 8026970X now JC-829305K), 08 Aug 2004@

Hav (GD) Chandra Thakuri (No. 8027956X now JC-829306M), 02 Aug 2004@

Hav (GD) Ranvir Singh (No. 8027897W now JC-829307P), 17 Aug 2004@

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 01 May 2004 without effect on pay and allowances)

@(Gtd seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 19 Jun 2004 without effect on pay and allowances)

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Balendra Singh (JC-258192X), 18 Feb 2004/01 Oct 2003*

Nb Sub Vijendra Kumar Singh (JC-260334H), 17 Dec 2003/01 Oct 2003*

Nb Sub Ubale Sitaram Tulshiram (JC-261181W), 14 Jun 2004/01 Oct 2003*

Nb Sub Prafulla Kumar Rout (JC-261182Y), 26 May 2004/01 Oct 2003*

Nb Sub Pran Nath (JC-261826N), 09 Oct 2003/01 Oct 2003*

Nb Sub Surat Ram (JC-262052H), 01 Oct 2003

Nb Sub Har Singh Negi (JC-262004H), 10 Oct 2003/01 Oct 2003*

Nb Sub V Sekar (JC-262752W), 23 Dec 2003/01 Oct 2003*

Nb Sub Sat Paul (JC-263050K), 20 Jan 2004/01 Oct 2003*

Nb Sub Prithi Chand (JC-264028L), 11 Nov 2003/01 Oct 2003*

Nb Sub Lala Ram (JC-261728N), 01 Nov 2003/15 Oct 2003*

Nb Sub Jessa Ram (JC-260060H), 14 Nov 2003/01 Nov 2003*

Nb Sub Puran Singh (JC-260143N), 01 Jun 2004/01 Nov 2003*

Nb Sub Daya Chand (JC-260850X), 12 Dec 2003/01 Nov 2003*

Nb Sub Anadi Charan Behera (JC-262171L), 07 Dec 2003/01 Nov 2003*

Nb Sub K Ramnani (JC-262639F), 10 Nov 2003/01 Nov 2003*

Nb Sub Raj Kumar (JC-262916F), 13 Nov 2003/01 Nov 2003*

Nb Sub Krishan Ram Mishra (JC-263202A), 01 Nov 2003

Nb Sub Hem Chand Kaliya (JC-263280X), 01 Nov 2003

Nb Sub Raj Singh (JC-263303N), 17 Dec 2003/01 Nov 2003*

Nb Sub Vijay Kumar (JC-262932Y), 06 Jan 2004/06 Nov 2003*

Nb Sub Bhagra Ram (JC-263305Y), 06 Jan 2004/01 Dec 2003*

Nb Sub Abhai Singh (JC-263763P), 28 Jan 2004/01 Dec 2003*

Nb Sub Parkash Chander Barhiwal (JC-264293F), 19 Dec 2003/01 Dec 2003*

Nb Sub Ramesh Chandra Singh (JC-263034M), 10 Feb 2004/19 Dec 2003*

Nb Sub Satya Paul (JC-263829A), 22 Feb 2004/12 Dec 2003*

Nb Sub Chander Pal (JC-261579L), 31 Mar 2004/14 Dec 2003*

Nb Sub Ishwar Singh (JC-260807W), 18 Dec 2003

Nb Sub Jagmal Singh (JC-260816X), 22 Jan 2004/01 Jan 2004*

Nb Sub Santokh Singh (JC-262403M), 13 May 2004/24 Feb 2004*

Nb Sub Chavan Arjun Ramdas (JC-261758L), 25 Feb 2004

Nb Sub Rajendra Singh (JC-261514X), 06 May 2004/01 Mar 2004*

Nb Sub Gurdev Singh (JC-263239F), 19 Apr 2004/01 Mar 2004*

Nb Sub Ramesh Chandra Das (JC-263335W), 19 Apr 2004/01 Mar 2004*

Nb Sub Mahabir Singh (JC-263724W), 01 Mar 2004

Nb Sub Tarlok Singh (JC-263350L), 29 Apr 2004/18 Mar 2004*

Nb Sub Ashok Kumar Mishra (JC-261272A), 26 Jul 2004/01 Apr 2004*

Nb Sub Duli Chand (JC-261750Y), 17 May 2004/01 Apr 2004*

Nb Sub Bajinder Singh (JC-263051M), 01 Jun 2004/01 Apr 2004*

Nb Sub Birbal Singh (JC-263728M), 10 Jun 2004/01 Apr 2004*

Nb Sub Munna Lal (JC-263697X), 15 May 2004/01 Apr 2004*

Nb Sub Baldev Singh (JC-263804H), 10 May 2004/01 Apr 2004*

Nb Sub Satyander Singh (JC-264313K), 15 May 2004/01 Apr 2004*

Nb Sub Murugavel (JC-264556P), 05 Jun 2004/01 Apr 2004*

Nb Sub Sandhya Dass (JC-264415A), 17 Jul 2004/01 Apr 2004*

Nb Sub Satpal Singh (JC-261315K), 06 Apr 2004

Nb Sub Moti Chand Yadav (JC-263075W), 27 Apr 2004/06 Apr 2004*

Nb Sub Pavitharan NV (JC-262613M), 05 May 2004/07 Apr 2004*

Nb Sub Samsher Singh (JC-261802K), 21 May 2004/22 Apr 2004*

Nb Sub Sher Khan (JC-261603W), 29 Apr 2004

Hav Adumthilla Saheb (14369551M now JC-266840K), 26 Mar 2004/01 Oct 2003*

Hav Victor Raphael Sah (14474971K now JC-266841M), 10 Jun 2004/10 Feb 2004*

Hav Jagdish Singh (14345618A now JC-266842P), 14 Mar 2004

BHM Nemi Chand (14355564X now JC-266843X), 17 Apr 2004/15 Mar 2004*

Hav Laxman Singh (14461643Y now JC-266844A), 07 May 2004/15 Mar 2004*

RHM MD Sahabuddin SK (14461695N now JC-266845H), 13 Apr 2004/23 Mar 2004*

Hav Teja Ram Malwa (14368340W now JC-266846L), 26 Apr 2004/24 Mar 2004*

Hav Rajendra Prasad (14485172N now JC-266847N), 09 May 2004/01 Apr 2004*

Hav Gopal Singh (15102993K now JC-266848W), 21 Apr 2004/01 Apr 2004*

Hav K Krishniah (14354043A now JC-266849Y), 01 Apr 2004

Hav Rodeappa Tulsi Ram (14348619W now JC-266850N), 15 Apr 2004/01 Apr 2004*

Hav Satya Pal (15110757X now JC-266851W), 24 Apr 2004/01 Apr 2004*

RHM Animash Ray (14352576P now JC-266852Y), 01 May 2004/05 Apr 2004*

*(Gtd seniority wef)

Hav PN Velu (14348502P now JC-266853P), 05 May 2004/
15 Apr 2004*

BHM Safuruddin Barbhuiya (14343093H now JC-266854K),
28 Apr 2004/24 Apr 2004*

RHM Ram Kishan (14364157W now JC-266855M), 01 Jun
2004

Hav Mada Ram (14357296X now JC-266856P), 30 Apr 2004/
16 Jun 2003*

Hav Sunder Lal (14364224K now JC-266857X), 12 May
2004/01 Dec 2003*

RHM Raghubir Singh (14341684L now JC-266858A), 21
Jan 2004/01 Jan 2004*

BHM Ghanshyam Singh (14463710W now JC-266859H),
09 Feb 2004/06 Jan 2004*

Hav Duryodhan Ananda Jadhav (14352116A now JC-
266860X), 06 May 2004/15 Jan 2004*

Hav Ram Pravesh Shukla (14461282K now JC-266861A), 12
May 2004/06 Feb 2004*

BHK Sasidharan Kezhakka Veetil (14368206F now JC-
266862H), 08 May 2004/28 Feb 2004*

Hav Basudeb Ghosh (14351490W now JC-266863L), 17 Apr
2004/29 Feb 2004*

Hav Bhairu Prasad (14375072A now JC-266864N), 27 May
2004/01 Mar 2004*

Hav Satyavir (14357533N now JC-266865W), 29 Mar 2004/
03 Mar 2004*

Hav Prem Singh (14465300L now JC-266866Y), 06 Apr 2004/
13 Mar 2004*

Hav Jai Singh (14467517F now JC-266867F), 15 Mar 2004

BHM Ghasi Ram Yadav (14355559M now JC-266868K),
03 Jun 2004/01 Apr 2004*

Hav Parasharam Kesarkar (14489106M now JC-266869M),
17 May 2004/01 Apr 2004*

Hav Amar Bahadur (14363434K now JC-266870F), 05 May
2004/09 Apr 2004*

BQMH Rajender Singh (14497164F now JC-266871K),
09 Jun 2004/10 May 2004*

Hav Dilbag Singh (14472489K now JC-266545F), 29 Dec
2003/12 Aug 2003*

Hav Shrabhan Kumar (14354004Y now JC-266546K), 09 Mar
2004/07 Sep 2003*

BHM Harbhajan Singh (14469324A now JC-266547M),
20 Mar 2004/01 Sep 2003*

Hav Rathindra Nath Ghosh (14355702N now JC-266548P),
09 Mar 2004/05 Oct 2003*

BHM Ravi Shankar Mishra (14464652K now JC-266549X),
11 Jan 2004/01 Nov 2003*

RHM Rabindra Nath Dev (14352949K now JC-266550M),
16 Feb 2004/01 Dec 2003*

BHM Mahesh Chand (14467100F now JC-266551P), 22 Feb
2004/01 Dec 2003*

BHM Kailash Chand (14341398K now JC-266552X), 16 Feb
2004/01 Dec 2003*

Hav Rajendra Prasad (14477115X now JC-266553A), 16 Feb
2004/01 Jan 2004*

Hav Dharam Singh (14467037X now JC-266554H), 20 Mar
2004/03 Jan 2004*

Hav Sahi Ram (14352833N now JC-266555L), 19 Feb 2004/
15 Jan 2004*

Hav Arup Krishna Saha (14469512F now JC-266556N),
19 Feb 2004/15 Jan 2004*

Hav Charnjit Singh (14456617M now JC-266557W), 01 Feb
2004

RHM Kundan Singh (14476420X now JC-266558Y), 19 Feb
2004/01 Feb 2004*

BHM Naresh Singh (14477540H now JC-266559F), 01 Mar
2004

RHM Dalip Kumar Mangal (14346419Y now JC-266560W),
19 Mar 2004/02 Mar 2004*

RHM Saudan Singh (14342388M now JC-266562F), 29 Oct
2003

RHM Sidha Bahadur Chhetri (14397936Y now JC-266563K),
07 Jan 2004/01 Dec 2003*

RHM Vikram Singh (14396003X now JC-266564M), 22 Dec
2003/01 Dec 2003*

RHM Mahabir Singh (14488395W now JC-266565P), 05 Dec
2003/01 Dec 2003*

RHM Rajesh Kumar (14384387L now JC-266566X), 18 Jan
2004/01 Jan 2004*

Hav Gopi Chand (14462492W now JC-266567A), 10 Mar
2004/01 Sep 2003*

Hav Lakhwinder Singh (14464543X now JC-266568H), 19
Feb 2004/01 Oct 2003*

RHM Pradeep Kumar MK (14472985L now JC-266569L), 15
Mar 2004/07 Oct 2003*

BHM Madappa P S (14478494 L now JC-266570A), 15 Mar
2004/10 Oct 2003*

Hav Mahabir (14485679P now JC-266571H), 09 Feb 2004/22
Oct 2003*

Hav Sadhu Ram (14477049A now JC-266572L), 22 Feb 2004/
20 Nov 2003*

Hav Birju Singh (14339707H now JC-266573N), 10 Mar 2004/
21 Nov 2003*

BHM Ram Vishwas Kushwaha (14356274M now JC-
266574W), 06 Feb 2004/01 Dec 2003*

Hav Bhagwan Singh (14347606K now JC-266575Y), 03 Feb
2004/01 Dec 2003*

Hav Phool Prakash (14472235X now JC-266576F), 08 Jan
2004/02 Dec 2003*

RHM Rajendra Prasad (14371973P now JC-266577K),
09 Feb 2004/24 Dec 2003*

RHM Shivji Tiwari (14462401F now JC-266578M), 09 Feb
2004/01 Jan 2004*

BHM Jora Singh Sharma (14463673N now JC-266579P),
24 Jan 2004/13 Jan 2004*

BHM Rashpal Singh (15100942X now JC-266580K), 01 March 2004

BHM Ram Phal (14464929X now JC-266581M), 15 Mar 2004/01 Mar 2004*

Hav Sita Ram (14488862H now JC-266582P), 04 Mar 2004/01 Mar 2004*

Hav Narayanan Kaniyal (14477965F now JC-266601P), 06 Apr 2004/19 Aug 2003*

RHM Satender Prasad (14359726P now JC-266602X), 24 Feb 2004/07 Oct 2003*

Hav R Narayanan (14390429H now JC-266603A), 09 Mar 2004/30 Nov 2003*

Hav Darshan Singh (14477456H now JC-266604H), 22 Mar 2004/01 Dec 2003*

BHM Ranbir Singh (14462884K now JC-266605L), 29 Dec 2003/01 Dec 2003*

Hav Kulwant Singh (14474606H now JC-266872M), 15 Mar 2004/01 Oct 2003*

Hav Shriram Raysing Shinde (14358359P now JC-266873P), 22 Jun 2004/01 Oct 2003*

Hav G Umapathi (14468741A now JC-266874X), 16 Mar 2004/01 Dec 2003*

RHM Radhey Shyam (14474454M now JC-266875A), 08 May 2004/06 Mar 2004*

Hav Ramesh K P (14383806L now JC-266876H), 28 Jun 2004/08 Mar 2004*

Hav Balwant Singh Rana (14343655P now JC-266877L), 23 May 2004/15 Mar 2004*

BHM Ram Kishan (14466148H now JC-266878N), 01 Apr 2004

Hav Rajendra Ram Lal Jaiswal (14489688N now JC-266879W), 10 Apr 2004/01 Apr 2004*

BHM Jag Ram (14470461L now JC-266880L), 16 Apr 2004/01 Apr 2004*

Hav V Ponnuram (14482479N now JC-266881N), 24 Apr 2004/03 Apr 2004*

RHM Rajender Singh (14358703F now JC-266882W), 03 May 2004/06 Apr 2004*

Hav Krashna Kumar Singh (14344503A now JC-266883Y), 26 May 2004/23 Apr 2004*

BHM Hublal Tiwari (14349117X now JC-266884F), 01 May 2004

Hav Umed Singh (14354690X now JC-266885K), 01 May 2004

Hav Rajinder Singh (14463134X now JC-266886M), 01 Jun 2004

BHM Mool Chand (14468373W now JC-266887P), 01 Jul 2004/25 Jun 2004*

Hav Nandan Singh Chuphal (14488818Y now JC-266666H), 15 Apr 2004/26 Sep 2003*

Hav Om Prakash (14365125A now JC-266667L), 03 Apr 2004/30 Nov 2003*

Hav Hawa Singh (15111118H now JC-266668N), 04 Feb 2004/30 Nov 2003*

RHM Badupal Singh (14340729N now JC-266669W), 28 Dec 2003/01 Dec 2003*

Hav Gauri Shankar Ray (14344364F now JC-266670L), 28 Jan 2004/10 Jan 2004*

RHM Shiv Charan Saw (14345293X now JC-266671N), 23 Feb 2004/21 Jan 2004*

Hav Bhagwant Singh (14461742A now JC-266672W), 31 Mar 2004/29 Jan 2004*

Hav Radhakrishnan Nair V (14369175H now JC-266673Y), 16 Mar 2004/30 Jan 2004*

BHM Surinder Prasad Gupta (14463591L now JC-266674F), 17 Mar 2004/01 Feb 2004*

Hav Tarsem Singh (14456192Y now JC-266675K), 1 Feb 2004

Hav Devi Singh (14467548F now JC-266676M), 04 Feb 2004/01 Feb 2004*

Hav Parkash Chand Sharma (14473318K now JC-266677P), 11 Mar 2004/01 Mar 2004*

BHM Biswanath Tarafdar (14355242X now JC-266678X), 26 Mar 2004/01 Mar 2004*

Hav Bachchu Singh (14469650H now JC-266679A), 23 Mar 2004/01 Mar 2004*

Hav Jaydee Kumar Jagannath Choudhri (14477149L now JC-266680P), 18 Mar 2004/3 Mar 2004*

Hav Bhawani Datt (14460429H now JC-266681X), 01 Apr 2004/25 Mar 2004*

Hav Mahendra Singh (14365701Y now JC-266682A), 15 Mar 2004/01 May 2003*

Ganga Oraon (14465584N now JC-266683H), 27 Mar 2004/20 May 2003*

BHM Balbir Singh (14348241M now JC-266684L), 14 Feb 2004/01 Aug 2003*

Hav Jagdish Singh Shekhawat (15100776P now JC-266685N), 14 Feb 2004/06 Nov 2003*

Hav Om Prakash (14367481Y now JC-266686W), 14 Feb 2004/20 Nov 2003*

Hav Jadhav Dhanaji Shivaji (15117060M now JC-266687Y), 16 Feb 2004/30 Nov 2003*

Hav P Chandra Sekaran (14374945N now JC-266688F), 06 Mar 2004/30 Nov 2003*

Hav Shamsher Singh Bhardwaj (14346398W now JC-266689K), 12 Mar 2004/01 Dec 2003*

Hav P Vellaichurai (14351953A now JC-266690Y), 27 Jan 2004/08 Dec 2003*

Hav Kishan Lal Yadav (14385402F now JC-266691F), 25 Feb 2004/01 Feb 2004*

BHM Siddaveerappa (14364367W now JC-266692K), 31 Mar 2004/01 Feb 2004*

Hav Ashok Singh Rajput (14346435W now JC-266693M), 01 Mar 2004

Hav Susheel Kumar (14471006P now JC-266694P), 26 Mar 2004/17 Mar 2004*

RHM Jagdev Singh (14463819W now JC-266695X), 01 Apr 2004/25 Mar 2004*

Hav Babu Lal (14464867H now JC-266696A), 31 Mar 2004/25 Mar 2004*

Hav Yad Rain (14470273K now JC-266697H), 02 Apr 2004/01 Apr 2004*

(*Gtd Seniority wef)

R. CHATURVEDI
Under Secy.

No. 648, dated 3 December 2004—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY
ARMY EDUCATIONAL CORPS
TO BE SUBEDAR

PA Sub Munesh Kumar (JC-802811L), 15 Jul 2004@

PA Sub Chanchal Singh Roy (JC-802816K), 16 Aug 2004@
@ (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances).

PA Sub Ram Prakash Singh (JC-802822X), 22 Jul 2004#
(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances).

PA Sub Mahesh Chandra (JC-802830W), 02 Sep 2004\$

PA Sub Ved Prakash Dwivedi (JC-802831Y), 01 Aug 2004

PA Sub Nakhta Ram (JC-802833K), 01 Aug 2004

\$(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances).

PA Sub Jagdish Chander (JC-802836X), 01 Sept 2004

PA Sub Umesh Datt Bhardwaj (JC-802839L), 01 Sept 2004

V K KAPOOR
Under Secy.

No. 649, dated 9 December 2004—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)
CAPT TO MAJOR

Capt Karnal Singh (NTR-16602Y AMC/NT), 30 Dec 2002

Capt Hari Dass (NTS-17425P now NTR-16683H), AMC (Non Tech), 05 July 98

(M o D Notification published in the Gazette of India dated 30 January 99 insofar as it relates to the officer is hereby cancelled)

U S Dubey Capt (NTR-16647X AMC/NT), 22 Dec 2002

SHORT SERVICE COMMISSION
ARMY MEDICAL CORPS
CAPT TO MAJOR

MS-13822W Capt C Kamran, 19 Jul 2003

MS-13787Y Capt TV Sudha Mohan, 31 Aug 2003

MS-13726F Capt Snigdha Paddalwar, 22 Oct 2003

MS-13728M Capt A Arun Kishore, 27 Oct 2003

MS-13729P Capt Seema Prasad, 27 Oct 2003

MS-13731M Capt Vikas Sharma, 01 Nov 2003

MS-13798L Capt Arti Singh, 03 Jan 2004

MS-13810F Capt BR Dayananda, 13 Jan 2004

MS-13809M Capt Niranjan Mysore Somashekar, 02 Feb 2004

MS-13792K Capt Jyothi Jose, 19 Feb 2004

MS-13837Y Capt J Uma Sankar, 14 July 2003

MS-13831X Capt MV Anand Kumar, 24 Sept 2003

MS-13860M Capt Rohit Vohra, 01 Oct 2003

MS-13858P Capt Sandeep Mishra, 30 Oct 2003

MS-13850H Capt Deepali Tripathi, 01 Nov 2003

MS-13841F Capt Nambiar Sapna Sreedharan, 05 Nov 2003

MS-13845X Capt Kumar K S 10 Feb 2004

MS-13861P Capt Shiv Shankar, 11 Feb 2004

MS-13827P Capt Santre Manjeet, 25 Feb 2004

MS-13893X Capt Darin Saka, 16 Jul 2003

MS-13877A Capt Renu Sharma, 23 Aug 2003

MS-13881H Capt Jasbir Singh, 23 Aug 2003

MS-13894A Capt Amit Handa, 27 Aug 2003

MS-13888M Capt Prasanta Kumar Shanni Grahni, 01 Nov 2003

MS-13898W Capt Gurpreet Kaur Gill, 05 Nov 2003

MS-13868Y Capt R Sunder, 11 Oct 2003

MS-13873K Capt Anil Kumar Gupta, 11 Oct 2003

MS-13878-H Capt Aditya Gupta, 02 Dec 2003

MS-13864M Capt Binod Kumar, 08 Dec 2003

MS-13951W Capt Vandana Rana, 01 Jun 2002

MS-13511H Capt Manjunatha H. K., 15 Feb 2003

MS-13889P Capt Ashwani Kumar Bhardwaj, 02 May 2003

MS-13940K Capt Subir Kumar Rohatgi, 12 July 2003

MS-13957X Capt Shailesh Kumar Tripathi, 18 Oct 2003

MS-13961A Capt Abhaya Kumar Das, 29 Oct 2003

MS-13954K Capt S Chowdari, 11 Nov 2003

MS-13956P Capt Suresh A, 11 Nov 2003
 MS-13953F Capt Pradeep H, 13 Nov 2003
 MS-13847H Capt Devendra Dinkarrao Ghorpade, 15 Nov 2003
 MS-13946L Capt (Mrs) Sabina Roshan, 03 Jan 2004
 MS-13966Y Capt Maheshwara N, 14 Feb 2004
 MS-14021F Capt Sridhar R, 19 Jul 2003
 MS-14047W Capt Vibhuti Bhatnagar, 10 Aug 2003
 MS-13996W Capt Dil Raj Singh, 25 Oct 2003
 MS-14001N Capt Payal, 14 Dec 2003
 MS-13997Y Capt Suresh Pandey, 10 Jan 2004
 MS-14336L Capt Narendra Nath PK, 21 Jan 2004
 MS-14003Y Capt Ajit Kumar Padhy, 23 Jan 2004
 MS-13990P Capt Vinay Kumar K, 09 Feb 2004
 MS-13999K Capt Poovannan G, 23 Mar 2004
 MS-13920W Capt Pawar YS, 01 Apr 2004
 MS-13912X Capt Dinesh Kumar, 24 May 2003
 MS-14020Y Capt Pradeep Mishra, 09 Jul 2003
 MS-13921Y Capt Mahipal Singh, 16 Oct 2003
 MS-13903W Capt Dhiman Kumar Mandal, 30 Oct 2003
 MS-13925P Capt Navdeep Singh Puri, 03 Nov 2003
 MS-13934W Capt Raj Kumar Arora, 10 Nov 2003
 MS-13909X Capt (Mrs) Anuradha Behl, 17 Nov 2003
 MS-13908P Capt Anupama Mehta, 29 Nov 2003
 MS-13901L Capt (Miss) Preeti Tripathi, 11 Dec 2003
 MS-13916N Capt Sunil Verma, 14 Dec 2003
 MS-13938M Capt Saikat Moulik, 07 Feb 2004

**PERMANENT COMMISSION
 ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)
 LT TO CAPT**

Capt Satyendra Kumar Singh (NTS-17433N now NTR-16684L) AMC/SSC (Non Tech), 05 Jul 91

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 22 Oct 91 insofar as it relates to the officer is hereby cancelled)

Lt Hari Dass (NTS-17425P) now NTR-16683H) AMC (Non Tech), 05 Jul 91

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 22 Oct 91 insofar as it relates to the officer is hereby cancelled)

M SRIVASTAVA
 Brig
 Dy. DGAFMS(P)

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित,
 एवं प्रकाशन निर्यंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2004
 PRINTED BY THE/MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND
 PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2004

AIR HEAD QUARTERS

No. 650, dated 3 December 2004—The President is pleased to promote the following Private Secretaries (Group B Gazetted) of AFHQ Stenographers' Service as Principal Private Secretary (Group 'A' Gazetted) in the pay scale of Rs 10000-15200, on ad-hoc basis with effect from 02 Jul 2004 (FN) to 31 Dec 2004 or till availability of regular incumbents, whichever is earlier :—

- (a) Shri Bhim Sain
- (b) Shri DS Sandhu
- (c) Shri KS Pillay
- (d) Shri K Zachariah

The promotion shall be subject to the following conditions :—

(a) Their appointment is purely on temporary basis and shall be terminated on administrative grounds without issuing any prior notice to this effect.

(b) The officers shall have no claim for regular promotion/appointment on the basis of ad-hoc promotion granted now nor will their period of such appointment count towards seniority in the grade of PPS.

SANTOSH DASGUPTA,
 Dy. Chief Administrative Officer

No. 651, dated 9 Dec 2004—The President is pleased to make the following Substantive Promotions :—

**INDIAN AIR FORCE
 F(P) BRANCH**

FLT LT TO BE SUBSTANTIVE SQN LDR

N Sharma (23138), RB Singh (23139), VS Dhanda (23142), 03 Sept 2004

V Sharma (21997), wef 14 Mar 2003.

ADM BRANCH

FG OFFER TO BE SUBSTANTIVE FLT LT

Narinder Singh (26207), wef 05 Jul 2004.

AE (L) BRANCH

FG OFFER TO BE SUBSTANTIVE FLT LT

Gunseelan D Paul (25785), wef 05 Jan 2004.

SSRIVASTVA
 Sqn Ldr
 DDPO-3 (D)

No. 652, dated 3 Dec 2004—The President is pleased to retire Shri Daulat Ram, CSS, Section Officer, Ministry of Defence with effect from 30 Nov 2004 (AN) on attaining the age of superannuation.

V. SARASWATHY
 Dy. Secy.